



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



PATRIOTIC IAS

THE HINDU NEWSPAPER

DAILY CURRENT AFFAIRS

23 APRIL 2025

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

23_04_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

1. **Opposing imposition: On teaching Hindi in Maharashtra**
थोपे जाने का विरोध: महाराष्ट्र में हिंदी शिक्षण पर

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



GS Paper I: Society

Opposing imposition

Hindi can be promoted without making it mandatory

The announcement of the BJP-led government in Maharashtra that English and Marathi medium schools will begin teaching Hindi as a third language from Class 1, as part of the implementation of the National Education Policy 2020, is running into significant political opposition. Previously, Hindi was introduced as a third language only from Class 6 onwards. Schools with other mediums of instruction have already been following the three-language formula from Class 1. While some view the announcement as an instance of Hindi imposition, others fear its potential in undermining Marathi. Chief Minister Devendra Fadnavis defended the move, stating that Hindi serves as an acceptable language of communication across India. But there are concerns about the practical challenges of this mandate: the extensive logistics involved in teacher recruitment and training, besides salary costs. Media reports and social media chatter have pointed to an emerging hostility towards Hindi, which could be a response to the perceived imposition. There is resentment that the move is an effort to appease the sizeable population of native Hindi speakers settled in Maharashtra. Historically, the State has witnessed a strong regional political identity, epitomised by the Shiv Sena since the 1960s. This identity has emphasised Marathi pride, cultural assertion, and prioritisation of local employment. Yet, unlike Tamil Nadu, Maharashtra has not exhibited overt hostility towards Hindi. Even the Shiv Sena, which has targeted various groups – south Indians, Muslims, and north Indian migrant workers – at different times, did not cultivate animosity towards Hindi. The current resentment, therefore, seems less organic and more a product of the BJP's centralising agenda, which seeks uniformity in a culturally and linguistically diverse nation.

While the Constitution is unitary in structure, it recognises and accommodates diversity in numerous ways. Previous centralising efforts by Congress governments included the promotion of Hindi, but there was enough institutional flexibility to balance divergent interests. Though the BJP now governs with a reduced mandate, it has managed to secure support from allies for its centralising vision, provoking resistance in States such as Tamil Nadu and Maharashtra. Meanwhile, the educational landscape is undergoing a radical transformation with developments in AI and neuroscience. Instead of creating divisions, the Fadnavis government would do well to build consensus to address the evolving demands of school and higher education.

- **Chief Minister Devendra Fadnavis** defended the move, stating that Hindi is an **acceptable language of communication across India.**

Opposing imposition: On teaching Hindi in Maharashtra

थोपे जाने का विरोध: महाराष्ट्र में हिंदी शिक्षण पर

The announcement by the BJP-led Maharashtra government to begin teaching Hindi as a third language from Class 1 in English and Marathi medium schools, as part of National Education Policy 2020, is facing significant political opposition.

भाजपा-शासित महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अंग्रेजी और मराठी माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की घोषणा को गंभीर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

- Previously, Hindi was introduced as a third language only from **Class 6 onwards.**

पहले, हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में केवल कक्षा 6 से शुरू किया जाता था।

- Schools with **other mediums of instruction** have already been following the **three-language formula** from **Class 1.**

अन्य माध्यमों वाले स्कूल पहले से ही कक्षा 1 से त्रिभाषा सूत्र का पालन कर रहे हैं।

- Some critics view this announcement as an act of **Hindi imposition**, while others fear it may **undermine Marathi.**

कुछ आलोचक इस घोषणा को **हिंदी थोपने** के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य को डर है कि इससे **मराठी को कमजोर** किया जा सकता है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि हिंदी पूरे भारत में एक स्वीकार्य संवाद भाषा है।

- Concerns remain about the **practical challenges** of implementing this move, such as **teacher recruitment, training, and salary costs**.

इस निर्णय के व्यावहारिक चुनौतियों को लेकर चिंता बनी हुई है, जैसे कि शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण, और वेतन खर्च।

- Media reports and **social media chatter** reflect a growing **hostility towards Hindi**, possibly due to its **perceived imposition**.

मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया चर्चाओं में हिंदी के प्रति बढ़ती शत्रुता दिखती है, जो संभवतः इसके थोपे जाने की धारणा से जुड़ी है।

- There is **resentment** that this move is aimed at **appeasing the large population of Hindi speakers** settled in **Maharashtra**.

यह असंतोष भी है कि यह कदम महाराष्ट्र में बसे हिंदी भाषियों की बड़ी आबादी को खुश करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

- Maharashtra** has a strong **regional political identity**, symbolised by the **Shiv Sena** since the **1960s**, rooted in **Marathi pride, cultural assertion, and local employment**.

महाराष्ट्र की एक मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक पहचान है, जिसे 1960 के दशक से शिवसेना द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें मराठी गौरव, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी गई है।

- However, unlike **Tamil Nadu**, **Maharashtra** has not shown **open hostility** towards **Hindi**.

हालांकि, तमिलनाडु के विपरीत, महाराष्ट्र ने हिंदी के प्रति खुली शत्रुता नहीं दिखाई है।

- Even **Shiv Sena**, despite targeting various groups like **South Indians, Muslims, and North Indian migrants**, did not develop **hatred towards Hindi**.

यहां तक कि शिवसेना ने, भले ही उसने कभी दक्षिण भारतीयों, मुसलमानों, और उत्तर भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया हो, फिर भी उसने हिंदी के प्रति द्वेष नहीं पनपाया।

- The current resentment appears more driven by the **BJP's centralising agenda, which promotes uniformity in a culturally and linguistically diverse nation**.

वर्तमान असंतोष अधिकतर भाजपा के केंद्रीकरण एजेंडा से प्रेरित लगता है, जो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाले देश में एकरूपता को बढ़ावा देता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- While the **Constitution is unitary in structure, it accommodates diversity in several ways.**
हालांकि संविधान की संरचना एकात्मक है, यह कई तरीकों से विविधता को समाहित करता है।
- Earlier **Congress governments** also promoted **Hindi**, but allowed **institutional flexibility** to balance **divergent interests.**
पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने भी हिंदी को बढ़ावा दिया था, लेकिन उन्होंने संस्थागत लचीलापन भी बनाए रखा जिससे विभिन्न हितों में संतुलन बना रहे।
- Though the **BJP now governs with a reduced mandate**, it has secured support from **allies** for its **centralising vision**, provoking **resistance** in **States** like **Tamil Nadu** and **Maharashtra.**
हालांकि भाजपा अब घटते जनादेश के साथ शासन कर रही है, फिर भी उसने अपने केंद्रीकरण दृष्टिकोण के लिए सहयोगियों का समर्थन हासिल किया है, जिससे तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विरोध उत्पन्न हो रहा है।
- Meanwhile, the **educational landscape** is evolving rapidly with advances in **AI** and **neuroscience.**
इस बीच, शिक्षा प्रणाली में एआई और न्यूरोसाइंस के विकास के साथ तेजी से परिवर्तन हो रहा है।

Instead of creating **divisions**, the **Fadnavis government** should focus on **building consensus** to meet the **changing needs of school and higher education.**
विभाजन पैदा करने की बजाय, फडणवीस सरकार को स्कूल और उच्च शिक्षा की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए सहमति बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

TOPICS COVERED GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)

1. Order in T.N. Governor Case Doesn't Apply to Kerala, Centre Argues in SC

तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में आदेश केरल पर लागू नहीं होता, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

2. Supreme Court Debate: Applicability of Tamil Nadu Governor Verdict to Kerala



सुप्रीम कोर्ट में बहस: तमिलनाडु राज्यपाल मामले का केरल पर लागू होना या नहीं

3. Vance Calls for Closer Ties Between U.S. and India in Defence and Energy Sectors

अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंधों की वकालत: वांस

4. U.K. Rejected Extradition of Bhandari, ED Tells Court

ब्रिटेन ने भंडारी के प्रत्यर्पण से किया इनकार, ईडी ने अदालत को बताया

5. Saudi Arabia is a Force of Positivity and Stability: Modi

सऊदी अरब सकारात्मकता और स्थिरता की शक्ति है: मोदी

6. Matters that count: On criticisms of the Supreme Court

महत्वपूर्ण मुद्दे: सुप्रीम कोर्ट की आलोचनाओं पर

7. A move that endangers the right to vote

मतदान के अधिकार को खतरे में डालने वाला कदम

8. Exploring India's Potential in the Arctic Region

आर्कटिक क्षेत्र में भारत की संभावनाओं की खोज

9. Section 69 of the BNS is redundant

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 अनुपयोगी है

10. EU's Far-Right vs Judiciary Conflict

यूरोपीय संघ में दक्षिणपंथ बनाम न्यायपालिका का टकराव

11. India's Political Infodemic: Notes from Five State Elections

भारत की राजनीतिक इंफोडेमिक: पाँच राज्य चुनावों से नोट्स



Order in T.N. Governor case doesn't apply to Kerala, Centre argues in SC

GS Paper II: Polity

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Centre maintained in the Supreme Court on Tuesday that a judgment delivered on April 8 in a case filed by the State of Tamil Nadu, mandating Governors and the President to decide on pending State Bills within a maximum of three months, would not apply to neighbouring Kerala.

A Bench of Justices P.S. Narasimha and Joymalya Bagchi was told by both Attorney-General R. Venkataramani and Solicitor-General Tushar Mehta that the facts of Tamil Nadu's case against the delay caused by its Governor R.N. Ravi in clearing 10 re-passed Bills did not "cover" Kerala. Mr. Mehta said the government was still studying the April 8 Tamil Nadu Governor case judgment, and sought an adjournment. The case was scheduled for detailed hearing on May 6.

Justice Narasimha said

Ongoing issue

Kerala's case against its Governor dates back to over two years

- Kerala had argued in the Supreme Court that keeping Bills pending for long and indefinite periods of time by Governors is manifestly arbitrary
- A Governor is a part of the State Legislature under Article 168 of the Constitution and cannot act in a way contrary to the wishes of the elected representatives of the people
- By sitting on Bills, Governor tried to 'defeat the rights of the people'. An arbitrary show of lack of urgency by the Governor violated the fundamental right to life of the people of Kerala



the court would look into the entirety of the issue, especially if the Tamil Nadu Governor case judgment applied to Kerala. Article 141 of the Constitution mandates that the law declared by the Supreme Court in a judgment is binding.

Mr. Venkataramani said the difference in the cases of the two States lay "essentially in the facts".

Senior advocate K.K. Venugopal and advocate C.K.

Sasi said the deadline set by the Supreme Court for Governors and the President to decide whether or not to grant assent to Bills would apply across States.

All the Centre had to say in court was whether the Kerala Governor was bound by the Supreme Court timelines, Mr. Venugopal submitted.

The April 8 judgment had interpreted Article 200 of the Constitution, which related to the grant

of assent by Governors to Bills passed by State Legislatures. Delaying assent indefinitely on the Bills reduced these proposed laws, which voiced the aspirations of the people, into mere pieces of paper, it said.

Kerala's case against its Governor dates back to over two years. In a hearing on November 20, 2023, Mr. Venugopal had said eight key Bills were pending for eight to 23 months with the Governor. In the next court hearing on November 29, 2023, Kerala had informed the court that the Governor had assented to one Bill and referred the remaining seven to the President for consideration.

Mr. Venugopal had, however, demanded in court that the Governor explain if the seven Bills referred to the President had violated Article 254 (inconsistency between Central and State laws) or whether they had trampled into the Union List.

Order in T.N. Governor Case Doesn't Apply to Kerala, Centre Argues in SC

तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में आदेश केरल पर लागू नहीं होता, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

• The Central Government told the Supreme Court that the April 8 judgment in the Tamil Nadu Governor case, which required Governors and the

President to decide on pending State Bills within three months, does not apply to Kerala.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 8 अप्रैल को तमिलनाडु राज्यपाल मामले में दिया गया निर्णय, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को तीन महीनों के भीतर लंबित राज्य विधेयकों पर निर्णय लेना अनिवार्य किया गया था, केरल पर लागू नहीं होता।

- A Bench of Justices P.S. Narasimha and Joymalya Bagchi was informed by Attorney-General R. Venkataramani and Solicitor-General Tushar Mehta that the facts of the Tamil Nadu case do not "cover" Kerala's situation.

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जॉयमाल्य बागची की पीठ को महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि तमिलनाडु मामले के तथ्य केरल की स्थिति को "कवर नहीं करते"।

- Mr. Mehta said the government is still studying the April 8 judgment and requested an adjournment.



श्री मेहता ने कहा कि सरकार अभी भी 8 अप्रैल के निर्णय का अध्ययन कर रही है और स्थगन की मांग की।

- The case is scheduled for **detailed hearing on May 6.**
इस मामले की विस्तृत सुनवाई 6 मई को निर्धारित है।
- Justice Narasimha said the court would examine whether the **Tamil Nadu Governor case judgment** also applied to **Kerala.**
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि न्यायालय यह जांचेगा कि क्या तमिलनाडु राज्यपाल मामले का निर्णय केरल पर भी लागू होता है।
- **Article 141** of the Constitution **mandates that Supreme Court judgments are binding.**
संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
- Attorney-General Venkataramani emphasized that the **difference between the cases** of Tamil Nadu and Kerala lies “essentially in the **facts.**”
महाधिवक्ता वेंकटरमणि ने ज़ोर दिया कि तमिलनाडु और केरल मामलों के बीच का अंतर मुख्य रूप से तथ्यों में है।
- Senior advocate **K.K. Venugopal** and advocate **C.K. Sasi** argued that the **Supreme Court deadline** for Governors and the President to decide on Bills should apply **across all States.**
वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल और अधिवक्ता सी.के. सासी ने तर्क दिया कि राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने की सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा सभी राज्यों पर लागू होनी चाहिए।
- Mr. Venugopal said the **Centre** only needed to clarify whether the **Kerala Governor** was **bound by the Supreme Court timeline.**
श्री वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार को सिर्फ यह स्पष्ट करना है कि केरल के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा से बंधे हुए हैं या नहीं।
- The **April 8 judgment** interpreted **Article 200**, which relates to **Governor's assent** to State Bills.
8 अप्रैल का निर्णय अनुच्छेद 200 की व्याख्या करता है, जो राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित है।
- The court observed that **indefinite delay** in giving assent **reduced Bills to mere pieces of paper**, despite representing the **aspirations of the people.**
अदालत ने कहा कि विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लटकाना, जो जनता की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, उन्हें सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बना देता है।
- **Kerala's case** against its **Governor** has been ongoing for **over two years.**
केरल का मामला अपने राज्यपाल के खिलाफ दो वर्षों से अधिक समय से लंबित है।
- On **November 20, 2023**, Mr. Venugopal stated that **eight key Bills** were pending with the Governor for **eight to twenty-three months.**
20 नवंबर 2023 को श्री वेणुगोपाल ने बताया कि आठ महत्वपूर्ण विधेयक आठ से तेईस महीने तक राज्यपाल के पास लंबित हैं।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- By **November 29, 2023**, the **Governor** had given **assent to one Bill** and referred the **remaining seven to the President**.
29 नवंबर 2023 तक राज्यपाल ने एक विधेयक को स्वीकृति दी और शेष सात विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया।
- **Mr. Venugopal demanded that the Governor explain whether the seven referred Bills violated Article 254 or entered the Union List.**
श्री वेणुगोपाल ने मांग की कि राज्यपाल स्पष्ट करें कि क्या ये सात भेजे गए विधेयक अनुच्छेद 254 का उल्लंघन करते हैं या संघ सूची में हस्तक्षेप करते हैं।

U.K. rejected extradition of Bhandari, ED tells court

GS Paper II: Extradition

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Enforcement Directorate (ED) on Tuesday informed a Delhi court about a U.K. court denying the extradition of Sanjay Bhandari to India. Mr. Bhandari, a defence consultant, who is wanted on charges of tax evasion and money laundering, has cited the “unsafe conditions” in the Tihar Jail in Delhi.

Mr. Bhandari's name has also cropped up in the ED's ongoing probe in a money laundering case against Robert Vadra, brother-in-law of Congress leader Rahul Gandhi.

The submissions were made before Special Judge Neelofer Abida Perveen during the hearing of a money laundering case against Mr. Bhandari and others. The Central agency also submitted that its application to declare Mr. Bhandari a “fugitive” is currently pending.

Bhandari and others.

यह जानकारी विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन के समक्ष भंडारी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान दी गई।

U.K. Rejected Extradition of Bhandari, ED Tells Court

ब्रिटेन ने भंडारी के प्रत्यर्पण से किया इनकार, ईडी ने अदालत को बताया

- The **Enforcement Directorate (ED)** on **Tuesday** informed a **Delhi court** that a **U.K. court** has **denied the extradition** of **Sanjay Bhandari** to India.
मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि ब्रिटेन की अदालत ने संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया है।
- **Sanjay Bhandari, a defence consultant, is wanted in India on charges of tax evasion and money laundering.**
संजय भंडारी, एक रक्षा सलाहकार, भारत में कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित हैं।
- He has cited **“unsafe conditions” in Tihar Jail, Delhi** as the reason for opposing his extradition.
उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल की “असुरक्षित परिस्थितियों” का हवाला देते हुए अपने प्रत्यर्पण का विरोध किया है।
- Mr. Bhandari's name has also emerged in the **ED's ongoing investigation** in a **money laundering case involving Robert Vadra**, brother-in-law of **Congress leader Rahul Gandhi**.
श्री भंडारी का नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रही ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भी सामने आया है।
- The information was presented before **Special Judge Neelofer Abida Perveen** during a **hearing** related to the **money laundering case** against Mr.



- The ED also stated that its application to declare Mr. Bhandari a “fugitive” is still pending in court.

ईडी ने यह भी बताया कि भंडारी को “भगोड़ा” घोषित करने की याचिका अदालत में अभी भी लंबित है।

Saudi Arabia is a force of positivity and stability: Modi

The Prime Minister receives warm welcome in the historic city of Jeddah; he describes the energy-rich kingdom as ‘one of India’s most valued partners, a trusted friend and a strategic ally’

GS Paper II: West Asia

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi cut short his visit to Saudi Arabia after terrorists killed at least 26 Indians in Pahalgam in Jammu and Kashmir. Official sources said that bilateral discussions between the Saudi and Indian sides took place, though Mr. Modi decided to leave hours after landing in the Gulf kingdom.

Earlier, Mr. Modi reached the historic city of Jeddah on Tuesday for a two-day visit to Saudi Arabia. Before leaving for the visit, the Prime Minister said bilateral ties with Saudi Arabia had gathered “significant momentum” in recent years and described the Gulf kingdom as a “force of positivity and stability”.

“India values our historic relations with Saudi Arabia. Bilateral ties have gained significant momentum in the last decade. I look forward to participating in the second meeting of the Strategic Partnership Council. I will also be interacting with the Indian



Prime Minister Narendra Modi being welcomed by members of the Indian diaspora on his arrival in Jeddah on Tuesday. ANI

community there,” said the Prime Minister in a pre-departure statement. As a special gesture, the Prime Minister’s aircraft was escorted by F15 aircraft of the Royal Saudi Air Force in the Saudi airspace.

In an interview with Arab News, Saudi Arabia’s leading English publication, Mr. Modi described the energy-rich kingdom as “one of India’s most valued partners, a trusted friend and a strategic ally.” “In a world full of uncertainties, our bond stands

strong, as a pillar of stability.” The Prime Minister described Crown Prince Mohammed bin Salman as a “strong advocate of our bilateral ties.”

“Every time I have met him, His Royal Highness has left a deep impression on me. His insights, his forward-thinking vision and his passion for fulfilling the aspirations of his people are truly remarkable,” said Mr. Modi in his remarks about the Saudi Crown Prince who is also the Prime Minister of Saudi

Arabia. Mr. Modi was scheduled to hold the bilateral discussion as part of the Strategic Partnership Council with Crown Prince bin Salman.

Mr. Modi said India and Saudi Arabia were working on a Bilateral Investment Treaty. “We consider Saudi Arabia as a force of positivity and stability in the region. As maritime neighbours, India and Saudi Arabia share a natural interest in safeguarding peace and stability in the region,” said Mr. Modi.

Saudi Arabia is a Force of Positivity and Stability: Modi

सऊदी अरब

सकारात्मकता और

स्थिरता की शक्ति

है: मोदी

- Prime Minister Narendra Modi received a warm welcome in the historic city of Jeddah during his two-day visit to Saudi Arabia.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

सऊदी अरब की ऐतिहासिक

जेद्दाह नगरी में अपने दो

दिवसीय दौरों के दौरान

गर्मजोशी से स्वागत मिला।

- Mr. Modi described the energy-rich kingdom as “one of India’s most valued partners, a trusted friend and a strategic ally.”

श्री मोदी ने ऊर्जा समृद्ध

सऊदी अरब को “भारत का एक

सबसे मूल्यवान साझेदार, भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी” बताया।

- He referred to Saudi Arabia as a “force of positivity and stability” and said bilateral ties have gained significant momentum in recent years.



उन्होंने सऊदी अरब को "सकारात्मकता और स्थिरता की शक्ति" बताया और कहा कि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण गति आई है।

- Mr. Modi had to **cut short** his visit after **at least 26 Indians** were killed in **Pahalgam, Jammu and Kashmir**, due to a **terrorist attack**.

जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में कम से कम 26 भारतीयों की आतंकवादी हमले में मौत के बाद श्री मोदी को अपना दौरा संक्षिप्त करना पड़ा।

- Despite the tragedy, **bilateral discussions** between the **Indian and Saudi delegations** took place during his short stay.

इस त्रासदी के बावजूद, उनके संक्षिप्त प्रवास के दौरान भारत और सऊदी प्रतिनिधिमंडलों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई।

- Before departure, Mr. Modi highlighted the importance of the **Strategic Partnership Council** meeting and said he would interact with the **Indian community**.

प्रस्थान से पहले श्री मोदी ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक की महत्ता बताई और कहा कि वह वहां भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे।

- As a **special gesture**, the Prime Minister's aircraft was **escorted** by **F-15 aircraft** of the **Royal Saudi Air Force** within Saudi airspace.

विशेष सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री के विमान को सऊदी वायुसीमा में रॉयल सऊदी एयर फोर्स के F-15 विमानों ने एस्कॉर्ट किया।

- In an interview to **Arab News**, Mr. Modi reiterated Saudi Arabia is a **"trusted friend and strategic ally"** and a **pillar of stability** in a world full of uncertainties.

अरब न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि सऊदी अरब एक "भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी" है और यह अनिश्चितताओं से भरे विश्व में स्थिरता का स्तंभ है।

- He praised **Crown Prince Mohammed bin Salman** for his **visionary leadership**, calling him a **strong advocate of India-Saudi ties**.

उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता की सराहना की और उन्हें भारत-सऊदी संबंधों के प्रबल समर्थक बताया।

- Mr. Modi said a **Bilateral Investment Treaty** is being worked on between **India and Saudi Arabia** to further economic cooperation.

श्री मोदी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम चल रहा है ताकि आर्थिक सहयोग को और बढ़ाया जा सके।

- He emphasized that both countries, being **maritime neighbours**, share a **natural interest in safeguarding peace and stability** in the region.

उन्होंने यह भी जोर दिया कि दोनों देश समुद्री पड़ोसी होने के नाते इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में स्वाभाविक रुचि रखते हैं।



Vance calls for closer ties between U.S., India in defence, energy sectors

GS Paper II: India-US

The Hindu Bureau
JAIPUR

Pitching for closer ties in the defence and energy sectors, United States Vice-President J.D. Vance on Tuesday said the strength of his country's relations with India would determine the world's future in the 21st century. The trade agreement between the two countries would be built on fairness and shared priorities, Mr. Vance said.

Addressing an event at the Rajasthan International Centre here, Mr. Vance said the U.S. was looking for a greater access to the Indian markets, as this would lead to collaborations in diverse areas. He said it would create a "win-win partnership" when U.S. President Donald Trump was seeking to rebalance global trade to build a better future.

Mr. Vance said the governments of the two countries had identified



Diplomatic engagement: U.S. Vice-President J.D. Vance addressing a gathering in Jaipur on Tuesday. PTI

priority areas for creating new jobs, building durable supply chains and achieving prosperity for workers while negotiating for a bilateral trade agreement. "We have officially finalised the terms of reference for the trade negotiation," he said. Mr. Vance, who met Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on Monday, said the terms of reference would set a road map towards a final deal. This would also be in consonance with the desire of

the two countries to protect their workers while promoting exports without suppressing their wages, he said.

A large number of trade and industry representatives, politicians, government officials, academicians and students attended the event. Mr. Vance said the interests of the two nations in ensuring a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific region were in full alignment, while noting that In-

dia would soon host the Quad Leaders' Summit.

Welcoming the Modi government's announcement to amend the civil nuclear liability laws, Mr. Vance said the U.S. was willing to support India's energy security ambitions, "American energy can help realise India's nuclear power production goals, which would support its artificial energy ambitions... There is no AI future without energy security and energy dominance."

The U.S. Vice-President, who is on a four-day visit to India, said, "We don't blame PM Modi for fighting for India's industry, but we do blame past American leaders for failing to do the same for our workers."

While Trump's administration has announced 90-day pause on the steep tariff rates on Indian exports, Mr. Vance said Washington had earlier approached Mr. Modi with an attitude of "preachiness, or even one of condescension".

Vance Calls for Closer Ties Between U.S. and India in Defence and Energy Sectors

अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंधों की वकालत: वांस

- United States Vice-President J.D. Vance on Tuesday emphasized that the strength of U.S.-India relations would shape the world's future in the 21st century.

मंगलवार को अमेरिका के उप

राष्ट्रपति जे.डी. वांस ने जोर दिया कि अमेरिका-भारत संबंधों की मजबूती 21वीं सदी में दुनिया के भविष्य को निर्धारित करेगी।

- He highlighted that the upcoming trade agreement between the two countries would be based on fairness and shared priorities. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार समझौता न्यायपूर्णता और साझा प्राथमिकताओं पर आधारित होगा।

Market Access and Economic Cooperation

बाजार तक पहुंच और आर्थिक सहयोग

- While addressing an event at the Rajasthan International Centre, Mr. Vance said the U.S. sought greater access to Indian markets to enhance collaborations in diverse areas. राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वांस ने कहा कि अमेरिका भारतीय बाजारों तक अधिक पहुंच चाहता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सके।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- He mentioned that such access would create a **win-win partnership**, especially as **President Donald Trump** works to **rebalance global trade**.
उन्होंने कहा कि इस तरह की पहुंच एक **विन-विन साझेदारी** बनाएगी, खासकर जब **राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप** वैश्विक व्यापार संतुलन को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

Focus on Jobs and Supply Chains

रोजगार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर फोकस

- Mr. Vance noted that both governments had identified **priority areas** to generate **new jobs**, build **durable supply chains**, and ensure **worker prosperity**.
श्री वांस ने बताया कि दोनों सरकारों ने **प्राथमिकता वाले क्षेत्र** चिन्हित किए हैं ताकि **नए रोजगार** उत्पन्न किए जा सकें, **मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं** बनाई जा सकें, और **श्रमिकों की समृद्धि** सुनिश्चित की जा सके।
- He said, "We have officially **finalised the terms of reference** for the trade negotiation."
उन्होंने कहा, "हमने व्यापार वार्ता के लिए **शर्तों की रूपरेखा आधिकारिक रूप से तय** कर ली है।"
- These terms would provide a **road map** for the final deal and align with the goal to **protect workers and promote exports without lowering wages**.
ये शर्तें अंतिम समझौते के लिए **रोडमैप** तय करेंगी और इसका उद्देश्य **श्रमिकों की सुरक्षा और निर्यात को बढ़ावा देना** होगा, बिना वेतन कम किए।

Support for Indo-Pacific Stability and Energy Security

इंडो-पैसिफिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए समर्थन

- Mr. Vance said both countries' interests in ensuring a **free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific are fully aligned**.
श्री वांस ने कहा कि दोनों देशों के हित **मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र** सुनिश्चित करने में **पूरी तरह मेल खाते हैं**।
- He also welcomed the Indian government's move to **amend civil nuclear liability laws, supporting India's energy security**.
उन्होंने **नागरिक परमाणु देयता कानूनों में संशोधन** के लिए भारत सरकार के कदम का स्वागत किया और **भारत की ऊर्जा सुरक्षा में समर्थन देने** की बात कही।
- He said, "**American energy** can help India achieve its **nuclear power production goals**, which support its **artificial intelligence energy ambitions**."
उन्होंने कहा, "**अमेरिकी ऊर्जा** भारत को उसके **परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों** को प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जो उसकी **कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऊर्जा आकांक्षाओं** का समर्थन करेंगी।"
- He added, "**There is no AI future without energy security and energy dominance**."
उन्होंने कहा, "**ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा वर्चस्व के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य संभव नहीं है।**"

Visit and Trade Pause Context

यात्रा और व्यापार रोक की पृष्ठभूमि

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



- The **U.S. Vice-President**, currently on a **four-day visit to India**, said, “We don’t blame **PM Modi** for **fighting for India’s industry**.”
अमेरिका के उप राष्ट्रपति, जो भारत की चार दिवसीय यात्रा पर हैं, ने कहा, “हम प्रधानमंत्री मोदी को भारत की उद्योग हितों की रक्षा करने के लिए दोष नहीं देते।”
- However, he criticized **past American leaders** for not doing enough to protect **American workers**.
हालांकि, उन्होंने पूर्व अमेरिकी नेताओं की आलोचना की कि वे अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं कर पाए।
- He mentioned that **Trump’s administration** had announced a **90-day pause on high tariffs on Indian exports**.
उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यातों पर उंचे टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की थी।
- Mr. Vance noted that Washington had earlier approached **Mr. Modi** with an attitude of “**preachiness or condescension**.”
श्री वांस ने कहा कि पहले वाशिंगटन ने श्री मोदी के प्रति उपदेशात्मक या तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया था।

PATRIOTIC IAS



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



GS Paper II: Polity

Matters that count

Attempts to intimidate the judiciary pose a threat to democracy

The Supreme Court of India has been subjected to unfounded criticism by sections of the ruling BJP, and Vice-President Jagdeep Dhankhar, with regard to the separation of powers between the various branches of the government, and the principle of checks and balances. Not surprisingly, a Supreme Court bench took note of the charge that it was intruding into executive and legislative functions. In one petition, the Court was urged to direct the Centre to act under Articles 355 and 356 to deal with the situation of violence in West Bengal. In another, the Court's intervention was sought to curtail obscene content on online platforms. The Calcutta High Court had earlier ordered the deployment of Central forces to stem violence in Murshidabad in West Bengal. Judicial review of legislative and executive decisions is an integral part of India's constitutional democracy. Decisions of the executive and the legislature can be examined by the judiciary to determine whether they are consistent with the Constitution, and even constitutional amendments are subject to the 'basic structure' test. There are multiple constitutional avenues for judicial intervention in the making and enforcement of law. Article 13 gives the judiciary the power to strike down laws that are violating fundamental rights. Articles 32 and 226 give the Supreme Court and High Courts, respectively, the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights, and beyond.

The notion that the judiciary is subservient to legislature is out of line with the constitutional scheme. In fact, the judiciary is expected to insulate the rule of law from the pressure of public opinion that members of the legislature represent. It is in this constructive friction between various institutions of the state that a society can achieve stability in governance. The argument that legislatures can pass any law on the basis of a majority is a majoritarian argument. The erasure of the distinction between the executive and legislature has already created a crisis of accountability in governance at the national and State level in India. The attempt to intimidate the judiciary in the name of legislative supremacy is a threat to democracy – not its furtherance. In the recent judgment that set timelines for the Governor and President for acting on laws passed by the Assembly, the Supreme Court restored the authority of the elected legislatures, which was being trampled upon by an unelected Governor and arbitrary actions by the President. The critics of the judiciary miss this point altogether.

- **Judicial review** of legislative and executive decisions is an integral part of India's constitutional democracy.

विधायिका और कार्यपालिका निर्णयों की न्यायिक समीक्षा भारत की संवैधानिक लोकतंत्र का अविभाज्य हिस्सा है।

Matters that count: On criticisms of the Supreme Court

महत्वपूर्ण मुद्दे: सुप्रीम कोर्ट की आलोचनाओं पर

The Supreme Court of India has been subjected to unfounded criticism by sections of the ruling BJP, and Vice-President Jagdeep Dhankhar, with regard to the separation of powers between the various branches of government, and the principle of checks and balances.

भारत के सुप्रीम कोर्ट को शासन कर रही बीजेपी और उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा संविधान के विभाजन और चेक एंड बैलेंस सिद्धांत को लेकर निराधार आलोचना का सामना करना पड़ा है।

- Not surprisingly, a **Supreme Court bench** took note of the charge that it was **intruding into executive and legislative functions**.

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस आरोप का संज्ञान लिया कि वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है।

- In one petition, the Court was urged to direct the **Centre to act under Articles 355 and 356** to deal with the situation of violence in **West Bengal**.

एक याचिका में, कोर्ट से केंद्र को अनुच्छेद 355 और 356 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया था ताकि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की स्थिति से निपटा जा सके।

- In another, the Court's intervention was sought to **curtail obscene content on online platforms**.

दूसरी याचिका में, कोर्ट से ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री को सीमित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

- The **Calcutta High Court** had earlier ordered the deployment of **Central forces** to stem violence in **Murshidabad** in **West Bengal**.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया था।

- **Judicial review** of legislative and executive decisions is an integral part of India's constitutional democracy.

विधायिका और कार्यपालिका निर्णयों की न्यायिक समीक्षा भारत की संवैधानिक लोकतंत्र का अविभाज्य हिस्सा है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



- Decisions of the **executive** and the **legislature** can be examined by the judiciary to determine whether they are consistent with the **Constitution**, and even **constitutional amendments** are subject to the '**basic structure**' test.
कार्यपालिका और विधायिका के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे संविधान के अनुरूप हैं, और यहां तक कि संविधान संशोधन भी 'मूल संरचना' परीक्षण के अधीन हैं।
- There are multiple constitutional avenues for judicial intervention in the making and enforcement of **law**.
कानून बनाने और लागू करने में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए कई संविधानिक रास्ते हैं।
- **Article 13** gives the judiciary the power to strike down laws that violate **fundamental rights**.
अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को उन कानूनों को रद्द करने की शक्ति देता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- **Articles 32 and 226** give the **Supreme Court and High Courts**, respectively, the power to issue **writs** for the enforcement of **fundamental rights**, and beyond.
अनुच्छेद 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को, क्रमशः, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए हिदायतें जारी करने की शक्ति देते हैं, और उससे भी आगे।
- The notion that the **judiciary is subservient to the legislature** is out of line with the **constitutional scheme**.
यह धारणा कि न्यायपालिका विधायिका के अधीन है, संविधानिक योजना के अनुरूप नहीं है।
- In fact, the judiciary is expected to **insulate the rule of law** from the **pressure of public opinion** that members of the **legislature** represent.
वास्तव में, न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का शासन को उन लोकप्रिय दबावों से मुक्त रखे, जो विधायिका के सदस्य प्रदर्शित करते हैं।
- It is in this **constructive friction** between various institutions of the state that a society can achieve **stability in governance**.
यह सकारात्मक तनाव विभिन्न राज्य संस्थाओं के बीच है, जिसमें एक समाज शासन में स्थिरता प्राप्त कर सकता है।
- The argument that **legislatures can pass any law on the basis of a majority** is a **majoritarian argument**.
यह तर्क कि विधायिकाएं बहुमत के आधार पर कोई भी कानून पास कर सकती हैं, एक बहुसंख्यकवादी तर्क है।
- The **erasure of the distinction** between the **executive** and **legislature** has already created a **crisis of accountability** in governance at the **national and state level** in India.
कार्यपालिका और विधायिका के बीच अंतर का मिटना पहले ही भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शासन में उत्तरदायित्व का संकट उत्पन्न कर चुका है।
- The attempt to intimidate the judiciary in the name of **legislative supremacy** is a **threat to democracy** — not its furtherance.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



विधायी सर्वोच्चता के नाम पर न्यायपालिका को डराने की कोशिश लोकतंत्र के लिए खतरा है — न कि इसके संवर्धन के लिए।

- In the recent judgment that set timelines for the **Governor** and **President** for acting on **laws passed by the Assembly**, the **Supreme Court** restored the authority of the **elected legislatures**, which was being trampled upon by an **unelected Governor** and **arbitrary actions** by the **President**.

हाल ही के उस फैसले में, जिसने गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए विधानसभा द्वारा पारित कानूनों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा तय की, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव द्वारा चुनी गई विधानसभाओं के अधिकार को बहाल किया, जिसे अचुनावित गवर्नर और राष्ट्रपति के मनमाने कृत्य द्वारा दबाया जा रहा था।

- The **critics of the judiciary** miss this point altogether.
न्यायपालिका के आलोचक इस बिंदु को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।

PATRIOTIC IAS

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



A move that endangers the right to vote

GS Paper II: Polity

The Election Commission of India (ECI)'s renewed push to link Aadhaar with voter ID endangers the right to vote. It is being justified as a measure to clean electoral rolls, eliminate bogus voters, and improve electoral integrity. Yet, experience and data show that Aadhaar linkage has resulted in mass disenfranchisement, systemic errors, exclusions, arbitrary welfare disentanglements, and far-reaching infringements on the fundamental right to privacy of citizens.

Questionable claims

The claim that Aadhaar-voter ID linkage is voluntary is questionable. Presently, Form 6B offers no meaningful opt-out – voters must either submit their Aadhaar number or declare they do not have one, coercing even those unwilling to share it into compliance. Unsurprisingly, by September 2023, over 66 crore Aadhaar numbers had already been seeded. This was enabled not only by a coercive legal framework but also by data-sharing practices of questionable legality and constitutional, ethical propriety. These included the use of the DBT Seeding Data Viewer, which permits third-party access to non-biometric identity data held by UIDAI, as well as the repurposing of data collected for the National Population Register and by other government departments for unrelated administrative purposes.

The ECI's latest proposal fails to rectify this position. On the contrary, it makes the process more restrictive by requiring citizen-voters who do not provide Aadhaar to physically appear before an Electoral Registration Officer to justify their decision. In 2023, in *G. Niranjan v. Election Commission of India*, the ECI had assured the Supreme Court that Aadhaar-voter ID linkage is not mandatory and that appropriate clarifications would be introduced for that purpose; its latest proposal walks back on this commitment.

The new proposal also erodes the commitment to universal and equal suffrage by imposing barriers on those unwilling or unable to furnish Aadhaar. It places a disproportionate burden on the elderly, persons with disabilities, migrant workers, and individuals in remote areas for whom attending an in-person hearing before the Electoral Registration Officer is often neither practical nor reasonable. This not only compromises individual dignity but also diminishes the trust that is foundational to democratic participation.

The problem is further exacerbated by the lack of a clear, accessible, and time-bound appellate



John Simte
Lawyer and legal researcher

Instead of pushing a technological fix and infringing on the right to privacy of citizens, the ECI must focus on strengthening traditional, time-tested methods of voter verification

mechanism for the citizen-voter, if their justification for not submitting Aadhaar is arbitrarily rejected. The Supreme Court, in *Lal Babu Hussein and Others v. Electoral Registration Officer (1995)*, unequivocally held that any decision to delete a name from the electoral roll must comply with the principles of procedural fairness and natural justice.

The Union government and the ECI argue that Aadhaar-voter ID linkage will eliminate duplicate voters and electoral fraud. However, this claim does not withstand scrutiny. Aadhaar was never designed to serve as proof of citizenship. Section 9 of the Aadhaar Act, 2016, explicitly states that Aadhaar is a residency-based identification system, which means that an Aadhaar holder may not necessarily be an Indian citizen. Multiple High Courts have ruled that Aadhaar is not proof of Indian citizenship. The UIDAI itself has affirmed that even non-citizens residing in India for 182 days are eligible for Aadhaar. Importantly, the Supreme Court in *Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2018)* had limited the use of Aadhaar for welfare programmes paid out of the Consolidated Fund of India per Section 7 of the Aadhaar Act, 2016.

By linking Aadhaar with the voter ID, the ECI is creating a mechanism that introduces an unreliable filter into the electoral process, risks mass disenfranchisement of citizen-voters, and eroding the sanctity of universal suffrage and democratic participation guaranteed by the Constitution. These dangers are not hypothetical; they have been documented. In 2015, the ECI attempted a similar Aadhaar-voter ID linkage under the National Electoral Roll Purification and Authentication Programme. As a result, in Telangana and Andhra Pradesh alone, 55 lakh voters were arbitrarily removed from electoral rolls due to Aadhaar mismatches. Voters discovered their names missing only when they arrived at polling stations on election day. The ECI was forced to abandon the exercise after the Supreme Court issued a stay through its August 11, 2015 order.

Aadhaar-voter ID linkage also poses a severe risk of dragnet surveillance and voter profiling. The Digital Personal Data Protection Act, 2023, contains sweeping exemptions for political entities, raising the possibility that voter data could be accessed and exploited for political purposes. Once Aadhaar is linked to voter IDs, it becomes possible to cross-reference electoral data with other databases, allowing ruling parties to monitor voter demographics. The implications are concerning. Political actors could use this

data to micro-target voters, suppress opposition strongholds, or even manipulate electoral rolls to achieve predetermined electoral outcomes.

Seeding Aadhaar with electoral roll data subverts core principles of constitutional design. The ECI, vested with the powers of "superintendence, direction and control" over elections, is a constitutionally independent authority. In contrast, the UIDAI is a statutory body operating under executive control – bound by government directives under Section 50 of the Aadhaar Act, 2016, and subject to supersession under Section 48. Entrusting it with electoral data undermines the separation of powers, jeopardising the integrity of the electoral process and the democratic ideal of free and fair polls.

A further defect lies in the inherent unreliability of the Aadhaar database. The 2022 Comptroller and Auditor General (CAG) Performance Audit Report No. 24 of 2021 identified major deficiencies, including the cancellation of over 4.75 lakh Aadhaar numbers due to their duplication and issuance based on faulty biometric data. The CAG also found no assurance that all Aadhaar holders qualify as "residents" under the Aadhaar Act, as UIDAI had not prescribed any specific proof, document, or process to verify an applicant's period of residence in India. Relying on such an error-prone database for de-duplicating the electoral rolls would lead to wrongful deletions and exclusions.

Methods of electoral verification

Instead of pushing a technological fix and infringing on the right to privacy of citizens, the ECI must focus on strengthening traditional, time-tested methods of voter verification. Regular door-to-door verification by booth level officers; comprehensive, independent audits of electoral rolls; and functional public grievance redressal frameworks are more effective and constitutionally sound approaches to addressing concerns about alleged duplicate or fraudulent entries. Introducing independent oversight through social audits would further enhance accountability and prevent politically motivated manipulations of electoral rolls.

The right to vote is a constitutional guarantee. Any policy that imposes unreasonable burdens on citizen-voters, introduces unreliable verification mechanisms, or enables political profiling must be abandoned. The Aadhaar-voter ID linkage does all three. That such a constitutionally fraught scheme has found support across the political spectrum is troubling.

A move that endangers the right to vote

मतदान के अधिकार को खतरे में डालने वाला कदम

The Election Commission of India (ECI) is pushing to link Aadhaar with voter ID, claiming it will clean electoral rolls, eliminate bogus voters, and improve electoral integrity.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की पहल की जा



रही है, यह कहते हुए कि इससे मतदाता सूची साफ होगी, फर्जी मतदाता हटेंगे, और चुनावों की शुचिता बढ़ेगी।

- However, data and past experiences show that such linkage has led to **mass disenfranchisement, systemic errors, exclusions**, and violations of the **right to privacy**.

हालांकि, आंकड़े और पूर्व अनुभव दिखाते हैं कि इस प्रकार की लिंकिंग से **बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने, तंत्रगत त्रुटियों, बहिष्कारों, और गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन** की घटनाएँ सामने आई हैं।

Questionable claims

संदेहास्पद दावे

- The claim that the **Aadhaar-voter ID linkage is voluntary** is misleading.
यह दावा कि आधार-वोटर आईडी लिंकिंग स्वैच्छिक है, भ्रामक है।
- **Form 6B provides no real opt-out option** — voters must either provide their **Aadhaar number** or declare they don't have one, pressuring even the unwilling.
फॉर्म 6B में कोई वास्तविक विकल्प नहीं है — मतदाताओं को या तो आधार संख्या देनी होती है या यह घोषणा करनी होती है कि उनके पास आधार नहीं है, जिससे अनिच्छुक लोगों पर भी दबाव बनता है।
- **By September 2023, over 66 crore Aadhaar numbers were already seeded, enabled by a coercive framework and legally questionable data-sharing practices.**
सितंबर 2023 तक 66 करोड़ से अधिक आधार नंबर पहले ही जोड़े जा चुके थे, जो दबावपूर्ण ढांचे और कानूनी रूप से संदिग्ध डेटा साझाकरण के कारण संभव हुआ।
- **Examples include the DBT Seeding Data Viewer, which allows third-party access to identity data, and using NPR data for unrelated purposes.**
उदाहरण के लिए डीबीटी सीडिंग डेटा व्यूअर, जो तीसरे पक्ष को पहचान डेटा तक पहुंच देता है, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का अन्य कार्यों में प्रयोग शामिल है।
- The ECI's latest proposal does not solve these concerns; it worsens them by **requiring physical appearance before an Electoral Registration Officer for non-Aadhaar users.**
ECI का नया प्रस्ताव इन समस्याओं का समाधान नहीं करता; बल्कि इसे और कठिन बना देता है क्योंकि बिना आधार वाले मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
- In 2023, the ECI assured the **Supreme Court** that the linkage is not **mandatory**, but this proposal contradicts that commitment.
2023 में ECI ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि यह लिंकिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन नया प्रस्ताव इस वादे के विपरीत है।



- The proposal threatens **universal and equal suffrage** by creating **barriers** for those who cannot provide Aadhaar, especially the **elderly, disabled, migrant workers, and remote residents**.
यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए बाधाएँ खड़ी करता है जो आधार नहीं दे सकते, विशेष रूप से वृद्ध, विकलांग, प्रवासी मजदूर, और दूरदराज के क्षेत्रों के निवासी, जिससे समान और सार्वभौमिक मताधिकार पर असर पड़ता है।
- These requirements **compromise dignity** and reduce **public trust** in **democratic processes**.
ये शर्तें व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं।
- There is no **clear, accessible, or time-bound appeal process** if a voter's justification is **arbitrarily rejected**.
अगर किसी मतदाता का स्पष्टीकरण मनमाने ढंग से खारिज कर दिया जाए, तो कोई स्पष्ट, सुलभ या समयबद्ध अपील प्रक्रिया नहीं है।
- In the **1995 Supreme Court ruling**, it was held that **removal of a voter's name must follow procedural fairness and natural justice**.
1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतदाता का नाम हटाना प्राकृतिक न्याय और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।

The false promise of fraud prevention

धोखाधड़ी रोकने का झूठा वादा

- The **Union government** and **ECI** argue Aadhaar linkage will prevent **duplicate voters** and **fraud**, but this is flawed.
केंद्र सरकार और ECI का तर्क है कि आधार लिंकिंग से दोहराव वाले मतदाता और चुनावी धोखाधड़ी रोकी जाएगी, लेकिन यह गलत तर्क है।
- **Aadhaar is not proof of citizenship**. It is only a **residency-based ID**, as per **Section 9 of the Aadhaar Act, 2016**.
आधार, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह केवल निवास आधारित पहचान है, जैसा कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 में कहा गया है।
- **High Courts** and the **UIDAI** have confirmed that even **non-citizens** living in India for **182 days** are eligible for Aadhaar.
उच्च न्यायालयों और UIDAI ने पुष्टि की है कि भारत में 182 दिन रहने वाले गैर-नागरिकों को भी आधार मिल सकता है।
- The **Supreme Court**, in the **Puttaswamy case (2018)**, limited Aadhaar's use to **welfare schemes funded by the Consolidated Fund of India**, under **Section 7** of the Aadhaar Act.



सुप्रीम कोर्ट ने पुतास्वामी मामला (2018) में आधार के उपयोग को केवल संविलियन निधि से वित्तपोषित कल्याण योजनाओं तक सीमित कर दिया था, जो आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत आता है।

Risks of Aadhaar-Voter ID Linkage

आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने के खतरें

- By linking Aadhaar with the voter ID, the ECI is creating a mechanism that introduces an unreliable filter into the electoral process, **risks mass disenfranchisement of citizen-voters, and erodes the sanctity of universal suffrage and democratic participation guaranteed by the Constitution.**

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़कर, चुनाव आयोग एक ऐसा तंत्र बना रहा है जो चुनाव प्रक्रिया में अविश्वसनीय फिल्टर जोड़ता है, नागरिक मतदाताओं के व्यापक मताधिकार से वंचित होने का खतरा बढ़ाता है और संविधान द्वारा प्रदत्त सार्वभौमिक मताधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी की पवित्रता को कमजोर करता है।

- These dangers are not hypothetical; they have been **documented**.
ये खतरे केवल काल्पनिक नहीं हैं; इन्हें दस्तावेजों में दर्ज किया गया है।
- In **2015**, the ECI attempted a similar Aadhaar-voter ID linkage under the **National Electoral Roll Purification and Authentication Programme**.
2015 में, चुनाव आयोग ने **राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम** के तहत इसी तरह की आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंकिंग का प्रयास किया था।
- As a result, in Telangana and Andhra Pradesh, 55 lakh voters were arbitrarily removed from electoral rolls due to Aadhaar mismatches.**
इसके परिणामस्वरूप, **तेलंगाना और आंध्र प्रदेश** में **55 लाख** मतदाताओं को आधार मेल न खाने के कारण **मनमाने ढंग से** मतदाता सूची से हटा दिया गया।
- Voters discovered their names missing only when they arrived at polling stations on election day.**
मतदाताओं को यह तब पता चला जब वे **चुनाव वाले दिन** मतदान केंद्र पहुंचे और अपने नाम गायब पाए।
- The ECI had to **abandon** the exercise after the **Supreme Court stay order dated August 11, 2015**.
11 अगस्त 2015 के सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया **रद्द करनी** पड़ी।

Threat of Surveillance and Political Profiling

निगरानी और राजनीतिक प्रोफाइलिंग का खतरा

- Aadhaar-voter ID linkage poses a serious risk of **dragnet surveillance and voter profiling**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ना **व्यापक निगरानी और मतदाता प्रोफाइलिंग** का गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

- The **Digital Personal Data Protection Act, 2023**, grants **broad exemptions** to government entities, allowing potential **political misuse** of voter data.
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 सरकारी संस्थाओं को **व्यापक छूट** देता है, जिससे मतदाता डेटा के **राजनीतिक दुरुपयोग** की संभावना बनती है।
- Once Aadhaar is linked, it becomes possible to **cross-reference electoral data** with other databases.
आधार लिंक होने के बाद, चुनावी डेटा को अन्य डेटाबेस के साथ **परस्पर मिलान करना संभव** हो जाता है।
- This enables ruling parties to **monitor voter demographics, micro-target voters, suppress opposition, or even manipulate electoral rolls**.
इससे सत्तारूढ़ पार्टियां **मतदाता जनसांख्यिकी पर निगरानी, सूक्ष्म लक्ष्यीकरण, विपक्ष को दबाना, या यहां तक कि मतदाता सूची में हेरफेर कर सकती हैं।**

Violation of Constitutional Structure

संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन

- Seeding Aadhaar with electoral roll data **undermines the separation of powers**.
चुनावी डेटा में आधार को जोड़ना **सत्ता के पृथक्करण को कमजोर** करता है।
- The **Election Commission** is a **constitutionally independent body**, while **UIDAI** is a **statutory body** under **executive control**.
चुनाव आयोग एक **संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था** है, जबकि **यूआईडीएआई** एक **कार्यपालिका के नियंत्रण में वैधानिक निकाय** है।
- **Section 50 of the Aadhaar Act, 2016**, allows the government to direct UIDAI, and **Section 48 permits its supersession**.
आधार अधिनियम, 2016 की धारा 50 सरकार को **यूआईडीएआई को निर्देश देने की अनुमति देती है और धारा 48 इसे विलीन करने की अनुमति देती है।**
- Giving electoral control to UIDAI **jeopardises the independence and integrity of the electoral process**.
यूआईडीएआई को चुनावी नियंत्रण देना चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को खतरे में डालता है।

Unreliability of Aadhaar Database

आधार डाटाबेस की अविश्वसनीयता

- The **CAG Performance Audit Report No. 24 of 2021** revealed serious flaws in the Aadhaar system.



कैंग प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट संख्या 24 (2021) में आधार प्रणाली में गंभीर खामियों को उजागर किया गया।

- It reported the **cancellation of 4.75 lakh Aadhaar numbers** due to **duplication** and **faulty biometrics**.

इस रिपोर्ट में बताया गया कि 4.75 लाख आधार नंबर डुप्लीकेशन और त्रुटिपूर्ण बायोमेट्रिक डेटा के कारण रद्द किए गए।

- The **UIDAI had no system** to verify the **duration of residence**, casting doubt on whether Aadhaar holders are **actual residents** under the Aadhaar Act.
यूआईडीएआई के पास निवास अवधि की पुष्टि करने की कोई प्रणाली नहीं थी, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि आधार धारक वास्तव में निवासी हैं या नहीं।
- Using such a flawed database risks **wrongful deletions** and **exclusions** from electoral rolls.
ऐसे त्रुटिपूर्ण डाटाबेस का उपयोग गलत तरीके से नाम हटाने और बहिष्करण के जोखिम को बढ़ाता है।

Alternative and Constitutional Approaches

वैकल्पिक और संवैधानिक दृष्टिकोण

- Instead of relying on a **technological fix**, the **ECI should focus on traditional, proven voter verification methods**.
प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान के बजाय, चुनाव आयोग को परंपरागत और प्रमाणित मतदाता सत्यापन विधियों पर ध्यान देना चाहिए।
- This includes **door-to-door verification, independent audits, and a robust grievance redressal system**.
इसमें घर-घर सत्यापन, स्वतंत्र ऑडिट, और एक सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली शामिल होनी चाहिए।
- **Social audits** can add **transparency** and prevent **political manipulation** of electoral rolls.
सामाजिक ऑडिट से पारदर्शिता आएगी और मतदाता सूचियों की राजनीतिक हेरफेर को रोका जा सकेगा।

Right to Vote Must Be Protected

मतदान का अधिकार संरक्षित किया जाना चाहिए

- The **right to vote is a constitutional guarantee**.
मतदान का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है।
- Any policy that imposes **unreasonable burdens, introduces unreliable verification, or enables political profiling** must be **abandoned**.



कोई भी नीति जो अनुचित बोझ, अविश्वसनीय सत्यापन, या राजनीतिक प्रोफाइलिंग को बढ़ावा देती है, उसे त्याग देना चाहिए।

- The Aadhaar-voter ID linkage does all three — and its support across the political spectrum is deeply **concerning**.

आधार-मतदाता पहचान पत्र को जोड़ना इन तीनों समस्याओं को उत्पन्न करता है — और राजनीतिक रूप से इसे सभी दलों का समर्थन मिलना चिंताजनक है।

Exploring India's potential in the Arctic region

HS Paper II: Regional Groupings

Global trade is swinging like a pendulum, with potential headwinds from the U.S. nudging each nation to start doubling down on alternate trade strategies. In such a scenario, partnerships around supply chains and trade routes are expanding based not only on the current fracturing of regional blocs, but also on climate change.

The frozen frontier of the Arctic serves as a canary in the coal mines for the impending climate catastrophe. It also serves as the source of great geopolitical leverage as sea levels continue to rise and new trade routes emerge. The Arctic reflects a critical energy source for the Global South in the years to come. While not recklessly exploiting the Arctic reserves, India should also get a say in the commercial opportunity for the unseen future.

The dying canary signals new trade routes
The September Arctic sea-ice is now shrinking at a rate of 12.2% per decade compared to its average extent during the period from 1981 to 2010 (NASA). This melting ice is also opening up access to a new trade route called the Northern Sea Route (NSR) in the Arctic, linking the Atlantic and the Pacific. This will exponentially transform global trade by shifting the flow of cargo and saving time and freight costs. The NSR is being hailed as the shortest route between Europe and Asia. India's long-term approach to exploring new mega ports and new routes — not just from an economic lens, but also from a strategic and geopolitical lens — makes the NSR crucial.

The number of Observers at the Arctic Council outnumbers the number of Arctic states. This indicates the growing recognition of the vulnerability of existing trade routes to geopolitical tensions.

India began its engagement with the Arctic early by signing the Svalbard Treaty in 1920 and is the only developing nation besides China that has an Arctic research base (Himadri). Last year, the Institute for Governance and Sustainable



Manash K. Neog

Managing Director of Chase APAC, a public policy and research consulting firm



Swati Sudhakaran

Senior Manager at Chase

While not recklessly exploiting the Arctic reserves, India should also get a say in the commercial opportunity for the unseen future

Development and the National Council of Applied Economic Research partnered to model how changes in the Arctic, specifically the loss of sea ice, could influence India's monsoon patterns and agricultural outputs.

But to begin a timely action plan for the NSR, India's Arctic policy released in 2022 needs to be streamlined towards achieving its goals. India will need shipbuilding muscle to sail through the NSR's turbulent waters. The 2025-26 Budget set up a \$3 billion Maritime Development Fund for the Shipping Ministry along with promoting shipbuilding clusters to increase the range, categories, and capacity of ships. Shipbuilding suited to Arctic requirements is key given that travel conditions would be quite harsh in the short-term. This means India needs to make adequate investments in ice-breaking fleets and other structural upgrades.

There is an urgent need for India to engage in multilateral dialogue on capacity building, training requisites, and knowledge sharing. Could 2025 to be the year of action?

This year, the Arctic Circle India Forum is taking place on May 3 and 4 in New Delhi. This should help contextualise the dialogue from an Asia- and India-focused lens. The forum should serve as an impetus to move the needle forward on India's well-thought-out Arctic policy with stakeholder consultations, the forging of partnerships, and perhaps the appointment of a 'polar ambassador' to present India's case internationally.

As international cargo shipment on the NSR increased exponentially from 41,000 tonnes in 2010 to almost 37.9 million tonnes in 2024, India also needs to be cognisant of studies surfacing, such as in the scientific journal *Nature Climate Change*, showing that global temperatures in 2024 breached the 1.5°C mark above pre-industrial levels. This suggests that even a single month or year at 1.5°C global warming may signify that Earth is entering a long-term breach of the vital Paris Agreement threshold. How close

to the sun should we fly so that we do not lose our commercial vantage point but also do not call for an expedited disaster in one of the most fragile ecosystems on the planet? This presents a pressing policy issue for India and echoes the need for like-minded allies.

Playing with ice and fire

With its vast Arctic coastline, extensive experience in Arctic navigation, and training of personnel, Russia is an obvious partner for India to explore the NSR. The decision to establish a working group on the NSR under the bilateral intergovernmental commission on trade, economic, scientific, technical, and cultural cooperation was made during Prime Minister Narendra Modi's summit meeting with Russian President Vladimir Putin in Moscow in July last year. Also, the Chennai-Vladivostok Maritime Corridor emerges as a potential bridge to the NSR ports such as Pevek, Tiksi, and Sabetta.

However, if India inclines towards the Russian bloc, then it would be implying support to Chinese efforts, such as the Polar Silk Road which China is building as a northern extension of its Belt and Road Initiative. Not only would the NSR help China bypass the Malacca Strait chokepoint completely, but it would also give it much more control over the Arctic route.

If India supports the Western bloc and partners with the U.S., it could lose its perceived potential stake in the massive resources that currently fall under Russian control in the area. The ideal but obviously challenging solution would be to find a way to work with both the U.S. and Russia. Other partners should include Japan and South Korea. Both countries share India's concerns about the growing cooperation between China and Russia in the Arctic and about their businesses losing out on Arctic opportunities to Chinese competitors. The trio should advocate the rectification of disparities within the Arctic Council and promote a more inclusive and equitable Council.

Exploring India's Potential in the Arctic Region

आर्कटिक क्षेत्र में भारत की संभावनाओं की खोज



Global trade is experiencing a shift, with countries looking for alternate trade strategies due to uncertainties from the U.S.

वैश्विक व्यापार में बदलाव हो रहा है, जहां देश अमेरिका की अनिश्चितताओं के कारण विकल्प व्यापार रणनीतियों की ओर बढ़ रहे हैं।

- New **supply chain** and **trade route partnerships** are forming due to the **fracturing of regional blocs** and **climate change**.
क्षेत्रीय गुटों के टूटने और जलवायु परिवर्तन के कारण नए आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार मार्गों की साझेदारियाँ बन रही हैं।
- The **Arctic** is both a **climate warning signal** and a source of **geopolitical advantage** as it opens up new **sea routes**.
आर्कटिक एक तरफ जलवायु संकट की चेतावनी है, वहीं दूसरी तरफ यह भौगोलिक राजनीतिक लाभ का स्रोत भी बनता जा रहा है क्योंकि यहां नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं।
- India must not exploit the **Arctic reserves** recklessly, but must have a role in the **future commercial opportunities**.
भारत को आर्कटिक संसाधनों का लापरवाही से दोहन नहीं करना चाहिए, लेकिन भविष्य के वाणिज्यिक अवसरों में उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए।

The Dying Canary Signals New Trade Routes

मरती हुई चेतावनी नई व्यापारिक राहें दिखा रही है

- **Arctic sea-ice** in September is shrinking at a rate of **12.2% per decade** compared to 1981–2010 averages.
सितंबर में आर्कटिक समुद्री बर्फ की मात्रा प्रति दशक 12.2% की दर से घट रही है, जो कि 1981–2010 के औसत से तुलना की गई है।
- This melting ice is opening the **Northern Sea Route (NSR)**, linking the **Atlantic and Pacific Oceans**.
यह पिघलती बर्फ **Northern Sea Route (NSR)** को खोल रही है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है।
- The **NSR** is being seen as the **shortest trade route** between **Europe and Asia**, reducing **time** and **freight costs**.
NSR को यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा व्यापार मार्ग माना जा रहा है, जिससे समय और भाड़ा लागत में कमी आएगी।
- India's long-term focus on **mega ports** and **strategic trade routes** makes NSR a **critical interest**.
भारत का दीर्घकालिक ध्यान बड़े बंदरगाहों और रणनीतिक व्यापार मार्गों पर है, जिससे NSR बेहद महत्वपूर्ण बनता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



India's Early Arctic Engagement

भारत की प्रारंभिक आर्कटिक भागीदारी

- The number of Observer states at the **Arctic Council** exceeds the number of **Arctic states**, showing global interest.
आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक देशों की संख्या आर्कटिक देशों से अधिक है, जो वैश्विक रुचि को दर्शाता है।
- India joined the Arctic scene by signing the **Svalbard Treaty in 1920**.
भारत ने 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर करके आर्कटिक में प्रवेश किया।
- India is the only **developing country besides China** to have an **Arctic research base** called **Himadri**.
भारत एकमात्र विकासशील देश है जो चीन के अलावा Himadri नामक आर्कटिक अनुसंधान केंद्र रखता है।
- In **2023**, Indian institutions studied the **impact of Arctic ice loss on monsoon patterns and agriculture**.
2023 में भारतीय संस्थानों ने आर्कटिक बर्फ के नुकसान का मानसून पैटर्न और कृषि पर प्रभाव का अध्ययन किया।

Need for Streamlined Arctic Policy

सुसंगत आर्कटिक नीति की आवश्यकता

- To utilize the **Northern Sea Route**, India's **2022 Arctic Policy** needs to be better aligned with its **strategic goals**.
Northern Sea Route का लाभ उठाने के लिए भारत की 2022 की आर्कटिक नीति को उसके रणनीतिक उद्देश्यों के अनुसार सुसंगत करने की आवश्यकता है।
- India will require **strong shipbuilding capabilities** to operate in the **harsh Arctic waters**.
भारत को कठिन आर्कटिक जलक्षेत्र में संचालन के लिए मजबूत जहाज निर्माण क्षमताओं की आवश्यकता होगी।
- The **2025-26 Budget** created a **\$3 billion Maritime Development Fund** to support the **Shipping Ministry**.
2025-26 के बजट में \$3 बिलियन मरीन विकास फंड की घोषणा की गई, जिससे शिपिंग मंत्रालय को समर्थन मिलेगा।
- The policy also supports **shipbuilding clusters** to expand the **range and capacity** of vessels.
यह नीति जहाज निर्माण क्लस्टरों को भी बढ़ावा देती है ताकि जहाजों की श्रेणियां और क्षमता बढ़ाई जा सके।
- India needs to invest in **ice-breaking fleets** and **structural upgrades** for Arctic-suited travel.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



भारत को बर्फ तोड़ने वाले बेड़ों और संरचनात्मक सुधारों में निवेश करना होगा ताकि आर्कटिक यात्रा की कठिनाइयों को संभाला जा सके।

India's Strategic Choice in the Arctic: Urgency, Dialogue, and Diplomacy

आर्कटिक में भारत की रणनीतिक दिशा: तात्कालिकता, संवाद और कूटनीति

- There is an urgent need for India to engage in **multilateral dialogue** on **capacity building, training requisites, and knowledge sharing**.
क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आवश्यकताओं, और ज्ञान साझा करने पर भारत को बहुपक्षीय संवाद में तत्काल भाग लेना चाहिए।
- Could **2025** be the year of action for India's Arctic ambitions?
क्या **2025** भारत की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं के लिए **कार्रवाई का वर्ष** बन सकता है?

Arctic Circle India Forum 2025

आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025

- The Arctic Circle India Forum is scheduled on **May 3 and 4, 2025**, in **New Delhi**.
3 और 4 मई 2025 को नई दिल्ली में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम आयोजित किया जाएगा।
- This forum will **bring an India- and Asia-centric perspective to Arctic discussions**.
यह फोरम **भारत और एशिया केंद्रित दृष्टिकोण** को आर्कटिक चर्चाओं में प्रस्तुत करेगा।
- It should drive momentum for India's Arctic policy through **stakeholder consultations, partnerships, and possibly a 'polar ambassador'**.
यह फोरम **हितधारक परामर्श, साझेदारियों, और संभवतः एक 'पोलर एम्बेसडर'** की नियुक्ति के माध्यम से भारत की आर्कटिक नीति को आगे बढ़ा सकता है।

Rising Arctic Cargo and Climate Warnings

बढ़ता आर्कटिक कार्गो और जलवायु चेतावनियाँ

- **Cargo shipment on the Northern Sea Route (NSR)** rose from **41,000 tonnes in 2010** to **37.9 million tonnes in 2024**.
Northern Sea Route (NSR) पर कार्गो परिवहन 2010 में 41,000 टन से बढ़कर 2024 में 37.9 मिलियन टन हो गया।
- Meanwhile, **global temperatures in 2024** crossed the **1.5°C mark** above **pre-industrial levels**.
इसी दौरान, **2024 में वैश्विक तापमान** ने औद्योगिक पूर्व स्तरों से **1.5°C** की सीमा को पार कर लिया।
- This indicates a **possible long-term breach** of the **Paris Agreement threshold**.
यह **पेरिस समझौते की सीमा के लंबे समय तक उल्लंघन** की संभावना को दर्शाता है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



- India must balance between **commercial interests** and **environmental responsibility** in one of the **world's most fragile ecosystems**.
भारत को दुनिया के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में से एक में वाणिज्यिक हितों और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होगा।

Playing with Ice and Fire: Choosing Allies Wisely

बर्फ और आग से खेल: सहयोगी सोच-समझकर चुनना

- **Russia**, with its vast Arctic coastline, Arctic navigation experience, and trained personnel, is a logical partner for India.
रूस, जिसकी विशाल आर्कटिक तटरेखा, नेविगेशन अनुभव, और प्रशिक्षित कर्मी हैं, भारत के लिए एक स्वाभाविक साझेदार है।
- India and Russia decided to form a **working group on NSR** during the **Modi-Putin summit in July 2024 in Moscow**.
जुलाई 2024 में मॉस्को में हुए मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने **NSR पर कार्य समूह** बनाने का निर्णय लिया।
- The **Chennai-Vladivostok Maritime Corridor** could link Indian ports to **NSR ports** like **Pevek, Tiksi, and Sabetta**.
चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत को **Pevek, Tiksi, और Sabetta** जैसे **NSR बंदरगाहों** से जोड़ सकता है।
- Aligning with **Russia** may also suggest indirect support to **China's Polar Silk Road, a part of its Belt and Road Initiative**.
रूस के साथ गठजोड़ करना चीन के पोलर सिल्क रोड, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, को अप्रत्यक्ष समर्थन दे सकता है।
- The **NSR allows China to bypass the Malacca Strait** and gain more control over **Arctic shipping routes**.
NSR चीन को **मलक्का जलडमरूमध्य** को पूरी तरह से पार करने और **आर्कटिक मार्गों पर अधिक नियंत्रण** पाने की अनुमति देता है।
- If India leans towards the **Western bloc** and **U.S.**, it risks losing access to **Russian-controlled Arctic resources**.
यदि भारत **पश्चिमी गुट** और **अमेरिका** की ओर झुकता है, तो वह **रूस-नियंत्रित आर्कटिक संसाधनों** से दूरी बना सकता है।
- An **ideal strategy** would be to **engage with both Russia and the U.S.**, despite the complexity.
एक **आदर्श रणनीति** यह होगी कि भारत **रूस और अमेरिका दोनों के साथ साझेदारी** करे, भले ही यह जटिल हो।
- India should also partner with **Japan** and **South Korea**, who share its concerns on **China-Russia Arctic collaboration**.



भारत को जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी सहयोग करना चाहिए, जो चीन-रूस आर्कटिक सहयोग को लेकर भारत जैसी ही चिंताएं रखते हैं।

- These countries can jointly push for reforms in the Arctic Council to make it more inclusive and equitable.

ये देश मिलकर आर्कटिक परिषद में सुधार की वकालत कर सकते हैं, जिससे वह और अधिक समावेशी और न्यायसंगत बन सके।

Arctic Council आर्कटिक परिषद

- The Arctic Council is a high-level intergovernmental forum established to address issues faced by Arctic governments and indigenous communities in the Arctic region.

आर्कटिक परिषद एक उच्च-स्तरीय सरकारों के बीच का मंच है जिसे आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक सरकारों और आदिवासी समुदायों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को हल करने के लिए स्थापित किया गया है।

- It plays a pivotal role in facilitating cooperation, coordination, and interaction among Arctic States on common issues, especially sustainable development and environmental protection.

यह परिषद आर्कटिक देशों के बीच सहयोग, समन्वय, और परस्पर बातचीत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर।

Formation and Mandate

गठन और अधिकार क्षेत्र

- The Council was formally established through the Ottawa Declaration of 1996.
- It does not deal with military security, but focuses on scientific cooperation, climate change, biodiversity, marine environment, and socioeconomic development of indigenous Arctic populations.

यह परिषद सैन्य सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, समुद्री पर्यावरण, और आर्कटिक के आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

Membership Structure

सदस्यता संरचना



- Only sovereign states with territory within the **Arctic Circle** are eligible for **full membership**.
केवल वे संप्रभु राष्ट्र जिनकी भूमि आर्कटिक सर्कल के भीतर आती है, पूर्ण सदस्यता के पात्र होते हैं।
- There are **eight Arctic States**, all of whom are **founding members** of the Council:
आठ आर्कटिक देश हैं, जो सभी परिषद के संस्थापक सदस्य हैं:
 - Canada
कनाडा
 - Denmark (including Greenland and the Faroe Islands)
डेनमार्क (जिसमें ग्रीनलैंड और फैरो द्वीपसमूह शामिल हैं)
 - Finland
फिनलैंड
 - Iceland
आइसलैंड
 - Norway
नॉर्वे
 - Russia
रूस
 - Sweden
स्वीडन
 - United States
संयुक्त राज्य अमेरिका

Indigenous Permanent Participants

आदिवासी स्थायी प्रतिभागी

- The Council recognizes **indigenous communities** as vital stakeholders.
परिषद आदिवासी समुदायों को महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में मान्यता देती है।
- These groups are designated as **Permanent Participants**, allowing them **full consultation rights** in all negotiations and decisions.
इन समूहों को स्थायी प्रतिभागी के रूप में नामित किया गया है, जिससे उन्हें सभी वार्ताओं और निर्णयों में पूर्ण परामर्श अधिकार मिलते हैं।
- Some examples of **Indigenous Permanent Participants** include:
आदिवासी स्थायी प्रतिभागियों के कुछ उदाहरण हैं:
 - Arctic Athabaskan Council (AAC)
आर्कटिक एथाबास्कन परिषद (AAC)



- Inuit Circumpolar Council (ICC)
इनुइट सर्कंपोलर परिषद (ICC)
- Gwich'in Council International (GCI)
ग्विच'इन काउंसिल इंटरनेशनल (GCI)

Observer States and Organizations

पर्यवेक्षक राज्य और संगठन

- Observer status is open to non-Arctic states, intergovernmental organizations, and NGOs, approved by Arctic Council Ministers during biennial ministerial meetings.
पर्यवेक्षक का दर्जा गैर-आर्कटिक देशों, सरकारी संगठनों, और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुला है, जिन्हें हर दो वर्षों में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठकों में मंजूरी दी जाती है।
- Observer States are not granted voting rights, but may attend meetings, provide scientific expertise, and engage in working groups.
पर्यवेक्षक देशों को मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन वे बैठकों में भाग ले सकते हैं, वैज्ञानिक विशेषज्ञता दे सकते हैं, और कार्य समूहों में भाग ले सकते हैं।

Observer States (as of 2021)

पर्यवेक्षक देश (2021 तक)

- A total of 13 non-Arctic states currently hold observer status:
कुल 13 गैर-आर्कटिक देश वर्तमान में पर्यवेक्षक दर्जा रखते हैं:
 - Germany (since 1998)
जर्मनी (1998 से)
 - Netherlands (since 1998)
नीदरलैंड्स (1998 से)
 - Poland (since 1998)
पोलैंड (1998 से)
 - United Kingdom (since 1998)
यूनाइटेड किंगडम (1998 से)
 - France (since 2000)
फ्रांस (2000 से)
 - Spain (since 2006)
स्पेन (2006 से)
 - China (since 2013)
चीन (2013 से)



- India (since 2013)
भारत (2013 से)
- Italy (since 2013)
इटली (2013 से)
- Japan (since 2013)
जापान (2013 से)
- South Korea (since 2013)
दक्षिण कोरिया (2013 से)
- Singapore (since 2013)
सिंगापुर (2013 से)
- Switzerland (since 2017)
स्विट्ज़रलैंड (2017 से)

Eligibility Criteria for Observer States (Revised in 2011)

पर्यवेक्षक राज्यों के लिए पात्रता मानदंड (2011 में संशोधित)

In 2011, the Arctic Council revised its observer criteria with notable conditions.

2011 में आर्कटिक परिषद ने अपने पर्यवेक्षक मानदंडों को कुछ प्रमुख शर्तों के साथ संशोधित किया।

Applicants must **recognize the sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction** of Arctic states in the region.

आवेदकों को क्षेत्र में आर्कटिक देशों की संप्रभुता, संप्रभु अधिकारों और क्षेत्राधिकार को स्वीकार करना होगा।

Must recognize the extensive legal framework in the Arctic Ocean, particularly the **United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)**.

आवेदकों को आर्कटिक महासागर में व्यापक कानूनी ढांचे, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) को मान्यता देनी होगी।

Should contribute to the Council's work through **scientific and technical expertise or financial contributions**.

उन्हें परिषद के कार्य में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता या वित्तीय योगदान के माध्यम से योगदान देना चाहिए।



Key Functions and Working Groups

मुख्य कार्य और कार्य समूह

The Council operates through **six working groups**, each focusing on different **environmental or developmental themes**.

परिषद छह कार्य समूहों के माध्यम से कार्य करती है, जो विभिन्न पर्यावरणीय या विकास संबंधी विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

Key working groups include:

मुख्य कार्य समूहों में शामिल हैं:

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)

आर्कटिक निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम (AMAP)

Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)

आर्कटिक वनस्पति और जीव संरक्षण (CAFF)

Protection of the Arctic Marine Environment (PAME)

आर्कटिक समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा (PAME)

Sustainable Development Working Group (SDWG)

सतत विकास कार्य समूह (SDWG)

Importance of the Arctic Region

आर्कटिक क्षेत्र का महत्व

The Arctic is **critical to global climate regulation** and holds vast **untapped natural resources** like **oil, gas, and minerals**.

आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक जलवायु विनियमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें तेल, गैस और खनिजों जैसे विशाल अविकसित प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं।

The melting Arctic ice has opened up new **shipping routes** and **economic opportunities**, raising **geopolitical and environmental concerns**.

पिघलती हुई आर्कटिक बर्फ ने नई नौवहन मार्गों और आर्थिक अवसरों को खोला है, जिससे भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

Climate change is causing **rapid warming** in the Arctic—about **twice the global average**—which the Council seeks to mitigate.



जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में तेज़ गर्मी हो रही है—जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी है—जिसे परिषद कम करने का प्रयास करती है।

India and the Arctic Council

भारत और आर्कटिक परिषद

India was granted **Observer status in 2013** during the **Kiruna Ministerial Meeting**.

भारत को **2013** में किरुना मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था।

India has established the **Himadri Research Station** in **Svalbard, Norway** to conduct Arctic research in **climate science, polar biology, and atmospheric sciences**.

भारत ने नॉर्वे के स्वालबार्ड में हिमाद्रि अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है ताकि वह जलवायु विज्ञान, ध्रुवीय जीवविज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान में आर्कटिक अनुसंधान कर सके।

India supports a **science-based, policy-neutral** approach and acknowledges the **sovereign rights of Arctic nations**.

भारत एक विज्ञान-आधारित, नीतिगत रूप से तटस्थ दृष्टिकोण का समर्थन करता है और आर्कटिक राष्ट्रों के संप्रभु अधिकारों को स्वीकार करता है।



EU's far-right vs judiciary conflict

Certain far-right political figures in the European Union have been subjects of recent high-profile court cases that did not end in their favour, giving rise to accusations of political persecution and some deep contentions about judicial independence

GS Paper II: Europe

EXPLAINER

Franciszek Snarski

The story so far:

Across the European Union, a significant and escalating conflict is unfolding between ascendant right-wing nationalist parties and the judicial systems of member states. Recent court rulings targeting prominent far-right figures have led to accusations of political persecution and calls for protest, forming part of a broader, deeply contentious struggle over judicial independence, the rule of law, and the very nature of democratic governance.

Which rulings have intensified the conflict?

The immediate triggers for the heightened conflict are several high-profile court decisions. In France, the political landscape was shaken when the Paris Criminal Court delivered a verdict on March 31 against Marine Le Pen, leader of the National Rally (RN) party, sentencing her for the embezzlement of EU funds. The sentence included a four-year prison term (two years suspended) and, crucially, a five-year ban from holding public office. This ruling, handed down just over two years before the anticipated 2027 French presidential elections in which Ms. Le Pen was a leading contender, effectively sidelines her unless overturned on appeal.

Similar confrontations are evident elsewhere. In Romania, the Constitutional Court upheld a decision barring Călin Georgescu, a far-right figure who unexpectedly topped the first round of the 2024 presidential election before it was annulled, from running in the rescheduled May 2025 contest. The court's actions were rooted in the principle of "militant democracy", citing Mr. Georgescu's alleged antidemocratic behaviour, fraudulent campaign financing declarations, and suspected links to Russian-backed subversion efforts, which led to the annulment of the initial election results.

Meanwhile, in Germany, the domestic intelligence agency (BfV) has classified the Alternative for Germany (AfD) party as a suspected threat to democracy and the constitution, placing it under closer scrutiny. Although formal attempts to ban parties in Germany face high legal hurdles and have rarely succeeded since the 1950s, the BfV's designation highlights deep concerns within the German establishment about the AfD's compatibility with the country's "free democratic basic order".

What are the reactions?

The reactions from the targeted parties and their supporters have been swift and defiant. Ms. Le Pen and her supporters immediately decried the verdict, framing it as politically motivated. She labelled the proceedings a "political witch hunt" aimed at crippling her party and argued the Sapin II law, on the basis of which she was banned from running for office, was being improperly applied retrospectively. Vowing not to "give up", Ms. Le Pen has appealed the decision, with a hearing scheduled for 2026.

Meanwhile, fellow nationalist leaders across the continent commented on the rulings. Following the Le Pen verdict, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán posted "Je Suis Marine" on the social



Grand stand: Reactions to the conviction of Marine Le Pen included a demonstration called by SOS Racisme, French Human Rights League (LDH) and the French union General Confederation of Labour (CGT) to 'defend the rule of law' in Paris, on April 12. AFP

media platform X, while Italy's Deputy Prime Minister Matteo Salvini, leader of the Lega party, also voiced support for Ms. Le Pen and criticised 'Brussels' and 'leftwing radicals'.

The AfD in Germany has pursued legal challenges against the BfV's surveillance and classification decisions, while also taking internal steps, such as dissolving its official youth wing ("Young Alternative")—which the BfV had classified as extremist—in a move Politico described as potentially aiming to avert a ban and designate the party.

The narrative consistently pushed by the European conservative-nationalists is that these legal actions are not genuine applications of law but rather politically motivated manoeuvres by an entrenched "establishment" or "elite" seeking to eliminate potent electoral rivals who have been gaining significant ground across Europe.

How does this impact wider European politics?

This resonates with a segment of the populace disillusioned with traditional politics. They argue that the judiciary — far from being impartial — has become a tool to suppress conservative-nationalist movements, questioning the selective application of laws like Sapin II and alleging that similar transgressions by mainstream figures are often overlooked.

This conflict feeds into a wider, ongoing debate within the EU concerning the meaning and application of the rule of law. Liberal and centrist forces, alongside EU institutions like the Court of Justice of the European Union (CJEU), strongly maintain that adherence to the rule of law, including judicial independence and constitutional checks and balances, is fundamental to the Union's values and legal order.

They view attacks on the judiciary, particularly measures aimed at curtailing its independence as seen in Poland, during the former ultra-conservative PiS-led government, and currently in Hungary under Mr. Orbán, as direct threats to democracy itself.

Conversely, many conservative-nationalist voices argue that the "rule of law" concept is being weaponised by Brussels and national elites to impose a specific political agenda, overriding national sovereignty and democratic mandates.

Are foreign actors involved?

Adding another layer of complexity are persistent concerns about foreign interference, particularly from Russia. Analysis from institutions like the Carnegie Endowment for International Peace and reports from organisations like The Soufan Center suggest systematic Russian efforts to undermine democratic processes in the West through disinformation, financial support for extremist parties, and cyber operations.

The Romanian election annulment explicitly referenced suspicions of external manipulation favouring Mr. Georgescu, and historical financial links between parties like Ms. Le Pen's RN and Russian entities fuel anxieties about Moscow's influence.

While direct interference can be hard to isolate from domestic political dynamics, experts warn that Russia actively cultivates networks and exploits existing vulnerabilities within EU member states to promote anti-EU, anti-NATO sentiment and destabilise liberal democracies from within.

Prominent figures outside Europe have also weighed in. Following the Le Pen ruling, U.S. Vice President J.D. Vance had stated that the conviction was imposed

for a "very minor offense" and the resulting ban was "not democracy".

Tech billionaire Elon Musk called the ruling "abuse" that would "backfire", comparing it to legal actions against U.S. President Donald Trump and accusing "the radical left" of abusing the legal system globally to jail opponents.

Where does it leave the rule of law?

The escalating clash leaves the principle of the rule of law in a precarious position. When significant portions of the electorate perceive the judiciary not as an independent arbiter but as a political actor actively working against their chosen representatives, trust in fundamental democratic institutions erodes.

The rhetoric popularised by figures like Mr. Trump, calling to "drain the swamp", finds fertile ground among Europeans, particularly younger generations who may lack lived memory of authoritarian regimes of communist Eastern Europe and right-wing military dictatorships in Iberia and Greece, where courts genuinely served as instruments of political oppression.

This erosion of trust poses a long-term challenge. As Marek Safjan, a former judge of the Polish Constitutional Tribunal and the CJEU, noted, while the European judiciary, particularly the CJEU, commands significant respect and has been key to integration, it is not immune to political pressures and the rise of populism.

If courts are increasingly seen as mere players in the political fray rather than guardians of constitutional principles, the essential checks and balances underpinning European democracies risk being fatally weakened, opening the door to further democratic backsliding and instability.

THE GIST

A few prominent cases — including the verdicts against National Rally leader Marine Le Pen in France and Călin Georgescu in Romania, and government action against Alternative for Germany in Germany — have served as triggers, escalating this conflict.

The targeted parties and fellow nationalist leaders have been quick to react, terming the legal action as politically motivated manoeuvres.

The clash leaves the principle of law in a precarious position, and the trust in fundamental democratic institutions in the lurch.



यूरोपीय संघ में दक्षिणपंथ बनाम न्यायपालिका का टकराव

Across the European Union, a significant and escalating conflict is unfolding between ascendant right-wing nationalist parties and the judicial systems of member states.

यूरोपीय संघ में उभरती हुई दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टियों और सदस्य देशों की न्यायिक प्रणालियों के बीच एक बड़ा और बढ़ता हुआ टकराव सामने आ रहा है।

- Recent court rulings targeting prominent far-right figures have led to accusations of **political persecution** and calls for **protest**, sparking a debate on **judicial independence** and **democratic governance**.
हाल के न्यायालय के निर्णयों ने प्रमुख दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बनाया है, जिससे राजनीतिक प्रताड़ना के आरोप लगे हैं और न्यायिक स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक शासन पर बहस शुरू हो गई है।

Which rulings have intensified the conflict?

कौन से निर्णयों ने टकराव को और बढ़ाया?

- In **France**, on **March 31**, the **Paris Criminal Court** sentenced **Marine Le Pen**, leader of the **National Rally (RN)**, for **embezzlement of EU funds**.
फ्रांस में, 31 मार्च को पेरिस की आपराधिक अदालत ने नेशनल रैली (RN) की नेता मरीन ले पेन को ईयू फंड के गबन के लिए सजा सुनाई।
The sentence included a **4-year prison term** (2 years suspended) and a **5-year ban** from holding public office, just over **2 years before the 2027 French presidential election**.
इस सजा में 4 साल की जेल (2 साल निलंबित) और 5 साल के लिए सार्वजनिक पद पर प्रतिबंध शामिल था, जो कि 2027 फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 2 साल पहले आया।
- In **Romania**, the **Constitutional Court** barred **Călin Georgescu**, a far-right figure, from contesting the **May 2025 rescheduled election** citing **militant democracy** and alleged **fraudulent declarations**.
रोमानिया में, संवैधानिक न्यायालय ने दक्षिणपंथी नेता कालिन जॉर्जस्कु को मई 2025 के पुनर्निर्धारित चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया, यह कहते हुए कि यह मिलिटेंट डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए था और उन पर धोखाधड़ी से जुड़ी घोषणाओं का आरोप था।
- In **Germany**, the **domestic intelligence agency (BfV)** classified the **Alternative for Germany (AfD)** party as a **suspected threat to democracy**, placing it under close surveillance.
जर्मनी में, घरेलू खुफिया एजेंसी (BfV) ने जर्मनी के लिए विकल्प (AfD) पार्टी को लोकतंत्र के लिए एक संभावित खतरा घोषित करते हुए उस पर निगरानी बढ़ा दी है।



What are the reactions?

प्रतिक्रियाएँ क्या रही हैं?

- **Marine Le Pen** and her supporters denounced the verdict as a **politically motivated witch hunt** and claimed the **Sapin II law** was being applied **retrospectively**.
मरीन ले पेन और उनके समर्थकों ने इस फैसले को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि सैपिन II कानून को पूर्वव्यापी तरीके से लागू किया गया है।
- Ms. Le Pen has **appealed the decision**, and a hearing is scheduled in **2026**.
ले पेन ने इस निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई 2026 में निर्धारित है।
- Other nationalist leaders, including **Hungarian PM Viktor Orbán** and **Italy's Deputy PM Matteo Salvini**, expressed **solidarity with Le Pen** and **criticised the EU**.
अन्य राष्ट्रवादी नेताओं जैसे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन और इटली के उप प्रधानमंत्री माटेओ साल्विनी ने ले पेन के प्रति समर्थन व्यक्त किया और यूरोपीय संघ की आलोचना की।
- The **AfD** challenged the **BfV's designation** in court and **dissolved its youth wing** ("Young Alternative"), which was labelled **extremist** by BfV.
AfD ने BfV के निर्णय को अदालत में चुनौती दी और अपनी युवा शाखा ("यंग अल्टरनेटिव") को भंग कर दिया, जिसे चरमपंथी घोषित किया गया था।
- Far-right leaders claim these legal actions are **not impartial**, but attempts by the **establishment to eliminate political rivals**.
दक्षिणपंथी नेताओं का दावा है कि ये कानूनी कार्रवाइयाँ निष्पक्ष नहीं हैं, बल्कि स्थापित व्यवस्था द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को हटाने की कोशिशें हैं।

How does this impact wider European politics?

यह व्यापक यूरोपीय राजनीति को कैसे प्रभावित करता है?

- Many citizens disillusioned with **traditional politics** feel the **judiciary is biased** and being used to suppress **conservative-nationalist movements**.
कई लोग जो परंपरागत राजनीति से निराश हैं, मानते हैं कि न्यायपालिका पक्षपाती हो गई है और रूढ़िवादी-राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।
- This conflict feeds into the larger debate on the **rule of law**, with **liberal and centrist forces** arguing that **judicial independence** is essential for **democracy**.
यह टकराव कानून के शासन पर चल रही बड़ी बहस को हवा देता है, जहां उदारवादी और केंद्रपंथी ताकतें मानती हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
- Examples of **attacks on the judiciary** in **Poland** and **Hungary** under **right-wing governments** are cited as **threats to democracy**.
पोलैंड और हंगरी में दक्षिणपंथी सरकारों के तहत न्यायपालिका पर हमलों को लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में देखा गया है।
- Conservative-nationalists argue that the **rule of law** is being **weaponised** by **Brussels elites** to **undermine national sovereignty**.



रूढ़िवादी-राष्ट्रवादी मानते हैं कि कानून के शासन को ब्रसेल्स के अभिजनों द्वारा राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने के लिए हथियार बनाया जा रहा है।

Foreign Involvement in EU Judicial Conflicts

ईयू न्यायिक संघर्षों में विदेशी हस्तक्षेप

Persistent concerns about foreign interference, especially from Russia

विदेशी हस्तक्षेप, विशेषकर रूस से, को लेकर लगातार चिंता

- Adding another layer of complexity, there are **persistent concerns** about **foreign interference**, particularly from **Russia**.
इस मुद्दे को और जटिल बनाते हुए, **विदेशी हस्तक्षेप**, विशेषकर **रूस** को लेकर **लगातार चिंताएं** बनी हुई हैं।
- Analysis from institutions like the **Carnegie Endowment for International Peace** and reports from **The Soufan Center** highlight **systematic Russian efforts** to **undermine democratic processes** in the West.
कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जैसी संस्थाओं और **द सूफान सेंटर** की रिपोर्टों में पश्चिम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के **रूसी प्रयासों** की एक **सुव्यवस्थित रणनीति** की ओर इशारा किया गया है।
- Methods include **disinformation**, **financial support** for **extremist parties**, and **cyber operations**.
इसके तरीकों में **गलत सूचना फैलाना**, **चरमपंथी पार्टियों** को **वित्तीय सहायता देना**, और **साइबर हमले** शामिल हैं।

Specific examples of suspected foreign manipulation

संभावित विदेशी हस्तक्षेप के विशिष्ट उदाहरण

- The **Romanian election annulment** explicitly cited suspicions of **external manipulation** in favour of **Mr. Georgescu**.
रोमानियाई चुनाव को **निरस्त** करने में विशेष रूप से **श्री जॉर्जेंस्कु** के पक्ष में **बाहरी हस्तक्षेप** की आशंकाओं का हवाला दिया गया।
- Historical **financial links** between parties like **Marine Le Pen's National Rally (RN)** and **Russian entities** further fuel concerns about **Moscow's influence**.
मरीन ले पेन की नेशनल रैली (RN) जैसी पार्टियों और **रूसी संस्थाओं** के बीच पुराने **वित्तीय संबंध** **मॉस्को** के **प्रभाव** को लेकर चिंताओं को और बढ़ाते हैं।



Challenges in identifying direct interference

सीधे हस्तक्षेप की पहचान में कठिनाइयाँ

- While **direct interference** is hard to isolate from **domestic political dynamics**, experts warn of Russia's **active cultivation of networks** inside EU states.
हालांकि सीधे हस्तक्षेप को घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों से अलग करना कठिन है, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि रूस ईयू देशों के भीतर नेटवर्क तैयार करने में सक्रिय है।
- The goal is to exploit **vulnerabilities** and promote **anti-EU, anti-NATO sentiment**, destabilising **liberal democracies** from within.
इसका उद्देश्य कमजोरियों का फायदा उठाना, ईयू और नाटो विरोधी भावना को बढ़ावा देना और उदारवादी लोकतंत्रों को भीतर से अस्थिर करना है।

International reactions to EU judicial actions

ईयू न्यायिक कार्रवाइयों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ

- Following the **Le Pen ruling**, **U.S. Vice President J.D. Vance** stated the conviction was for a **“very minor offence”** and called the resulting **ban “not democracy”**.
ले पेन के फैसले के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वॉस ने कहा कि यह सजा एक "बहुत मामूली अपराध" के लिए थी और इसके परिणामस्वरूप लगाया गया प्रतिबंध "लोकतंत्र नहीं" है।
- **Elon Musk** called the ruling an **“abuse”** that would **“backfire”**, comparing it to legal actions against **Donald Trump** and accused the **“radical left”** of abusing legal systems globally.
एलन मस्क ने इस फैसले को एक "दुरुपयोग" कहा जो "उल्टा असर करेगा", और इसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्यवाहियों से करते हुए "कट्टर वामपंथियों" पर दुनिया भर में कानूनी तंत्रों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

Where does it leave the rule of law?

यह कानून के शासन को कहाँ छोड़ता है?

- The escalating clash places the **rule of law** in a **precarious position**.
यह बढ़ता हुआ टकराव कानून के शासन को अस्थिर स्थिति में डाल देता है।
- If voters view the judiciary as a **political actor** rather than an **independent arbiter**, **trust in democratic institutions** weakens.
यदि मतदाता न्यायपालिका को एक स्वतंत्र मध्यस्थ की बजाय राजनीतिक पक्षकार के रूप में देखते हैं, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कमजोर होता है।
- Rhetoric like **“drain the swamp”**, popularised by **Donald Trump**, finds support in Europe, especially among **younger generations** unfamiliar with past **authoritarian regimes**.



"इन द स्वेम्प" जैसे नारों को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने लोकप्रिय बनाया, यूरोप में विशेषकर युवाओं में समर्थन मिलता है, जो सत्तावादी शासन के अनुभव से वंचित हैं।

- These generations may not remember **Eastern European communist regimes or military dictatorships in Iberia and Greece**, where courts were tools of **political oppression**.

यह पीढ़ी पूर्वी यूरोप की कम्युनिस्ट सरकारों या इबेरिया और ग्रीस की सैन्य तानाशाहियों को नहीं जानती, जहाँ न्यायालय राजनीतिक दमन के उपकरण थे।

Long-term challenge for democratic systems

लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दीर्घकालिक चुनौती

- This **erosion of trust in the judiciary** is a **long-term threat to European democracy**. न्यायपालिका में यह विश्वास की गिरावट, यूरोपीय लोकतंत्र के लिए एक दीर्घकालिक खतरा है।
- According to **Marek Safjan**, former judge of the **Polish Constitutional Tribunal** and **CJEU**, even respected institutions like the **CJEU** are **not immune to political pressure**. पोलैंड के संवैधानिक न्यायाधिकरण और सीजीयूईयू के पूर्व न्यायाधीश मारेक साफज़न के अनुसार, यहां तक कि सीजीयूईयू जैसी सम्मानित संस्थाएं भी राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं हैं।
- If courts are increasingly seen as **political players** rather than **constitutional guardians, checks and balances** in European democracies may be **fatally weakened**. यदि न्यायालयों को संवैधानिक संरक्षक की बजाय राजनीतिक खिलाड़ियों के रूप में देखा जाने लगे, तो यूरोपीय लोकतंत्रों की संस्थागत संतुलन प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो सकती है।



India's political infodemic: notes from five State elections

Targeted campaigns and pointed propaganda have made their way directly to private messages, shaping public opinion and discourse in unexpected ways, and thereby offering a modern means to electoral victory

ISS Paper II: Elections

Vignesh Karthik K.R.
Aakansha Tandon

India's vibrant democratic landscape has always been marked by theatrics: mass rallies, passionate speeches, and intensive door-to-door campaigning. Yet, the past decade has witnessed this traditional electoral model intertwine significantly with digital platforms, giving rise to a phenomenon of 'infodemic'. While the word initially referred to the deluge of misleading information during the COVID-19 crisis, it now applies equally well to the continual onslaught of propaganda, half-truths, and outright falsehoods in political communication.

This new-age electoral dynamic, meticulously analysed by Joyojeet Pal, Azhagu Meena, Drupa Dinnie Charles and Anmol Panda, manifests most visibly in private messaging spaces like WhatsApp, placing targeted propaganda directly into users' hands and everyday conversations. The turning point emerged distinctly during the 2014 general elections, when Prime Minister Narendra Modi leveraged social media effectively, notably X (then Twitter), to bypass traditional media gatekeepers.

With internet penetration in India now reaching about 88 crore users and WhatsApp itself boasting over 59 crore active accounts, digital strategies have become indispensable campaign tools. Researchers Kiran Garimella and Dean Eckles highlight how manipulated images and misleading messages infiltrate local networks rapidly, outpacing fact-checking efforts.

Infiltrating community spaces

Central to the political infodemic is the covert infiltration of private WhatsApp groups, which were initially formed for community or casual interactions. These spaces have become prime targets for propaganda.

Local activists frequently compile voter lists, adding unsuspecting citizens into WhatsApp groups cleverly disguised as community forums, Resident Welfare Associations, or hobbyist groups. These groups gradually disseminate politically charged messages, embedding subtle propaganda into everyday interactions. Pal et al., emphasise how effectively these messages spread.

Once they permeate small groups, mainstream media often pick up these trends, amplifying their reach and lending them credibility. The result is a rapid transition from localised misinformation to national headlines, significantly altering public perception.

The WhatsApp Pramukh model

A highly organised mechanism drives these digital strategies. The Bharatiya Janata Party (BJP)'s implementation of 'WhatsApp Pramukhs', as analysed by researcher Divish Joshi, exemplifies this structured approach. These Pramukhs manage digital communications at local levels, systematically categorising voters based on caste, religion, economic status, and other demographics. They then distribute carefully crafted content—memes, videos, and doctored images—aligned with party agendas.

Local booth workers, often acting as



Vital tool: Be it Prime Minister Narendra Modi leveraging social media platforms ahead of the 2014 general elections or the BJP's Sheesh Mahal narrative in the run up to the Delhi elections, digital campaigns have proven quite effective. G. RAMAKRISHNA; PTI

WhatsApp Pramukhs, monitor content effectiveness meticulously, tracking engagement through forwards and responses. Messages that resonate well are swiftly amplified across multiple groups, creating a powerful ripple effect. Political leaders leverage these strategies deliberately, ensuring that their talking points penetrate deeply into community dialogues.

Data-driven targeting and profiling

Hyperlocal influence hinges significantly on sophisticated voter profiling. Parties purchase or obtain voter data, analysing it to identify community affiliations, regional issues, and ideological leanings. This data informs the creation of targeted WhatsApp groups tailored to specific demographic or interest cohorts.

Telangana's recent Assembly elections exemplify such micro-targeting. The Congress successfully cultivated digital volunteer networks, strategically highlighting agrarian distress and electricity costs to discredit incumbents, significantly impacting rural voter sentiment. Conversely, the BJP leveraged community-based groups, circulating nationalist and Hindutva-centric appeals.

Garimella and Eckles note rampant image-based disinformation, including old protest images repurposed against political rivals, proliferating unchecked in these groups and effectively polarising local communities.

Similarly, in Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu's Telugu Desam Party (TDP) claimed oversight of approximately 1.5 lakh WhatsApp groups. These groups delivered hyper-targeted content focusing on caste affiliations, regional disparities, and unemployment, responding dynamically to voter reactions. The rival Yuvajana Sramika

Rythu Congress Party (YSRCP) employed a comparable digital apparatus through its 'Team Jaganna' app, addressing voter queries and emphasising party achievements. This targeted digital rivalry deeply influenced local voter behaviour, often exacerbating existing social divides.

Five elections, one strategy

Across various Indian States, digital tactics exhibit distinct regional adaptations while retaining overarching strategies.

In Telangana, the Congress harnessed digital volunteers to emphasise voter concerns effectively, whereas the BJP ran covert community-centric campaigns emphasising religious sentiments.

For the Andhra Pradesh elections, TDP's extensive WhatsApp group network focused intensely on caste and regional identities, employing strategic misinformation campaigns around sensitive issues like land rights. The YSRCP mirrored these strategies with equal efficiency albeit less effectively, promoting welfare initiatives and undermining Opposition narratives.

In the Maharashtra elections, the BJP, notably under Chief Minister Devendra Fadnavis, projected infrastructural achievements through tailored digital campaigns. The Opposition responded with counter-narratives, though not without missteps—such as sharing misleading visuals that were quickly debunked.

As for the Haryana elections, BJP activists infiltrated community groups with narratives emphasising caste consolidation and strong leadership, embedding propaganda subtly into local traditions and folklore. The Congress struggled to match this grassroots approach, highlighting a significant

disparity in digital reach.

For the Delhi elections, Aam Aadmi Party (AAP) and BJP fiercely contested through AI-generated memes and viral content, with each party rapidly disseminating targeted narratives to specific demographic segments. BJP's 'Sheesh Mahal' narrative contrasted with AAP's pointed criticism of governance issues, demonstrating the potency of rapid digital dissemination.

Incentivising digital volunteer armies

Recognising the significance of motivated digital cadres, parties have invested in incentivisation mechanisms. The BJP has launched multiple apps—Kamal Connect, Saral App, and Nation with Namó—to assign tasks, track volunteer performance, and maintain competitive leaderboards, enhancing volunteer engagement through gamification.

Similarly, the Congress rewarded Telangana volunteers contributing to electoral success with digital smart cards offering insurance and potential party roles. Regional parties like TDP and YSRCP have also developed sophisticated digital volunteer management systems, using real-time feedback to refine their outreach.

Democratic implications, challenges

As Pal et al., stress, digital platforms have merged irrevocably with traditional electoral campaigning. This fusion erodes distinctions between overt advertising and covert propaganda, creating fertile ground for manipulative political communication.

Garimella and Eckles warn that encrypted private channels like WhatsApp accelerate the spread of unchecked misinformation, overpowering fact-checking efforts due to sheer volume and speed. The broader democratic implications are profound. When misinformation saturates personal conversations, it skews voter perceptions and potentially compromises electoral integrity, making informed democratic choices challenging. Effective countermeasures depend significantly on civil society vigilance, independent journalism, and informed citizen activism to expose and counter manipulative strategies.

What next?

The future promises intensified battles over digital influence, as parties continuously refine methods to dominate encrypted spaces. India's infodemic symbolises a broader global trend where digital micro-targeting increasingly shapes electoral outcomes subtly yet decisively.

Although fact-checking organisations exist, they struggle to match the speed and volume of viral content. Also, when half-truths are deployed in a war of narratives, fact-checking has a chequered impact.

The choice before Indian democracy is clear: heightened vigilance and proactive intervention to safeguard electoral integrity or passive acceptance of digital manipulation as a new political norm. Ultimately, preserving genuine democratic engagement hinges on collective responsibility—by alert citizens, proactive media, and responsive civil society—in mitigating the corrosive effects of unchecked digital propaganda.

Without widespread watchfulness, the infodemic will continue to flourish, subtly nudging millions of citizens in directions they might never have chosen through genuine, open discourse.

Vignesh Karthik K.R. is a postdoctoral research fellow of Indian and Indonesian politics at the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies - Leiden.

Aakansha Tandon is a political consultant based in the NCR.



India's Political Infodemic: Notes from Five State Elections

भारत की राजनीतिक इन्फोडेमिक: पाँच राज्य चुनावों से नोट्स

Modern Propaganda in Private Spaces

निजी जगहों में आधुनिक प्रचार

- Targeted campaigns and pointed propaganda have started reaching private messages, influencing public opinion and discourse in unexpected ways.
लक्षित अभियान और तीखा प्रचार अब निजी संदेशों तक पहुँचने लगे हैं, जिससे जनमत और संवाद अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित हो रहे हैं।
- This new form offers a **modern path to electoral victory**.
यह नया तरीका चुनावी जीत का आधुनिक माध्यम बन गया है।

Digital Transformation of Traditional Politics

परंपरागत राजनीति का डिजिटल परिवर्तन

- India's democratic tradition has long included **mass rallies, passionate speeches, and door-to-door campaigns**.
भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में लंबे समय से जनसभाएं, जोशीले भाषण, और घर-घर प्रचार शामिल रहा है।
- Over the past decade, these traditional forms have merged with **digital platforms**, creating a new political environment.
पिछले एक दशक में ये परंपरागत रूप डिजिटल प्लेटफार्मों से जुड़ गए हैं, जिससे एक नया राजनीतिक माहौल बना है।
- This has led to a political '**infodemic**', referring to a **flood of misinformation**, previously associated with the COVID-19 era.
इससे एक राजनीतिक 'इन्फोडेमिक' उत्पन्न हुई है, जो पहले कोविड-19 काल में देखी गई भ्रामक सूचनाओं की बाढ़ से जुड़ी थी।

Role of Social Media and WhatsApp

सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की भूमिका

- The 2014 general elections were a **turning point**, with **Prime Minister Narendra Modi** using **social media** like X (formerly Twitter) to bypass traditional media.
2014 का आम चुनाव एक मोड़ बिंदु था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया जैसे X (पहले ट्विटर) का उपयोग कर पारंपरिक मीडिया को दरकिनार किया।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- India now has around **88 crore internet users**, and **WhatsApp** has over **59 crore active accounts**.
भारत में अब लगभग 88 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, और व्हाट्सएप के पास 59 करोड़ से अधिक सक्रिय खाते हैं।
- Digital strategies have now become **essential campaign tools**.
डिजिटल रणनीतियाँ अब अभियानों के लिए अनिवार्य उपकरण बन गई हैं।

Spread of Misinformation through Local Networks

स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से भ्रामक जानकारी का फैलाव

- Researchers have found that **manipulated images and misleading messages** infiltrate local networks quickly.
शोधकर्ताओं ने पाया है कि **छेड़ी गई तस्वीरें** और **भ्रामक संदेश** स्थानीय नेटवर्क में बहुत तेजी से फैलते हैं।
- These messages often **outrun fact-checking efforts**, making it difficult to contain falsehoods.
ये संदेश अक्सर **तथ्य-जांच प्रयासों से तेज़** होते हैं, जिससे झूठ को रोकना मुश्किल हो जाता है।

Infiltrating Community Spaces

सामुदायिक स्थानों में घुसपैठ

- Private **WhatsApp groups**, originally meant for casual or community use, are now being infiltrated for **political propaganda**.
प्रारंभ में सामुदायिक या अनौपचारिक उपयोग के लिए बनाए गए निजी **व्हाट्सएप ग्रुप्स** अब **राजनीतिक प्रचार** के लिए घुसपैठ का शिकार हो रहे हैं।
- Activists add unsuspecting citizens into groups masked as **Resident Welfare Associations** or **hobbyist groups**.
कार्यकर्ता आम नागरिकों को ऐसे समूहों में जोड़ते हैं जो **रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन** या **शौक समूहों** के रूप में छिपे होते हैं।
- These platforms then slowly **embed political messages** into everyday conversations.
ये मंच धीरे-धीरे **राजनीतिक संदेशों** को **दैनिक संवादों** में शामिल कर लेते हैं।
- Such content often goes **viral**, picked up by **mainstream media**, further amplifying the message.
ऐसी सामग्री अक्सर **वायरल** हो जाती है और **मुख्यधारा मीडिया** इसे उठाकर और अधिक प्रचारित करती है।

WhatsApp Pramukh Model

व्हाट्सएप प्रमुख मॉडल



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The **Bharatiya Janata Party (BJP)** uses an organised structure with **WhatsApp Pramukhs** at the local level.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप प्रमुखों के माध्यम से एक संगठित संरचना का उपयोग करती है।
- These leaders manage **local digital communication**, dividing voters by **caste, religion, economic status**, etc.
ये प्रमुख स्थानीय डिजिटल संचार को संभालते हैं और मतदाताओं को जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर वर्गीकृत करते हैं।
- They distribute content like **memes, videos, and edited images** supporting the party's agenda.
वे मीम्स, वीडियो, और संपादित छवियों जैसे कंटेंट वितरित करते हैं जो पार्टी की विचारधारा को समर्थन देते हैं।
- Local booth workers track **engagement**, such as **forwards and replies**, and quickly amplify effective messages.
स्थानीय बूथ कार्यकर्ता फॉरवर्ड और उत्तर जैसे संपर्क की निगरानी करते हैं और प्रभावी संदेशों को तुरंत बढ़ावा देते हैं।
- Leaders use these tools to ensure their **narratives enter grassroots conversations**.
नेता इन उपकरणों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि उनकी बातें स्थानीय संवादों में गहराई तक पहुँचें।

Data-driven targeting and profiling

डेटा आधारित टारगेटिंग और प्रोफाइलिंग

- Hyperlocal influence relies heavily on **sophisticated voter profiling**.
हाइपरलोकल प्रभाव काफी हद तक परिष्कृत मतदाता प्रोफाइलिंग पर निर्भर करता है।
- Political parties acquire and analyze **voter data** to determine community affiliations, local issues, and ideological preferences.
राजनीतिक पार्टियाँ मतदाता डेटा प्राप्त करके उनका विश्लेषण करती हैं ताकि समुदाय की संबद्धता, स्थानीय मुद्दे और वैचारिक झुकाव को समझा जा सके।
- This data is used to create **targeted WhatsApp groups** based on specific demographics or interests.
इस डेटा का उपयोग विशिष्ट जनसांख्यिकी या रुचियों के आधार पर लक्षित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में किया जाता है।
- In **Telangana's Assembly elections**, Congress used digital volunteer networks to **highlight agrarian distress and electricity costs**, effectively shifting rural sentiment.
तेलंगाना विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने डिजिटल वालंटियर नेटवर्क का उपयोग करते हुए कृषि संकट और बिजली की लागत को उजागर किया, जिससे ग्रामीण मतदाता भावना प्रभावित हुई।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



- The BJP, on the other hand, circulated **nationalist and Hindutva** messages through community groups.
दूसरी ओर, बीजेपी ने समुदाय आधारित समूहों में राष्ट्रवादी और हिंदुत्व आधारित संदेश फैलाए।
- Researchers observed **widespread image disinformation**, such as old protest images reused to target political opponents.
शोधकर्ताओं ने विस्तृत छवि संबंधी भ्रामक जानकारी देखी, जिसमें पुराने विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों का पुनः उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने में किया गया।
- In **Andhra Pradesh**, the TDP claimed control over around **1.5 lakh WhatsApp groups**, distributing content focused on **caste, regional inequalities, and unemployment**.
आंध्र प्रदेश में, टीडीपी ने लगभग **1.5 लाख व्हाट्सएप समूहों** पर नियंत्रण होने का दावा किया, जिसमें जाति, क्षेत्रीय असमानताओं और बेरोज़गारी जैसे विषयों पर केंद्रित सामग्री साझा की गई।
- YSRCP countered with its own digital network via the “**Team Jagananna**” app, using it to respond to voters and promote achievements.
वाईएसआरसीपी ने अपनी “टीम जगनन्ना” ऐप के माध्यम से अपना डिजिटल नेटवर्क तैयार किया, जिससे मतदाताओं के सवालों का जवाब दिया गया और उपलब्धियों को प्रचारित किया गया।
- These **digital strategies** deepened **local voter influence** and in many cases worsened **existing social divisions**.
इन डिजिटल रणनीतियों ने स्थानीय मतदाता प्रभाव को गहराई दी और कई मामलों में मौजूदा सामाजिक विभाजनों को और बढ़ा दिया।

Five elections, one strategy

पांच चुनाव, एक रणनीति

- Across India, parties adapt **digital tactics** to regional settings while maintaining **core strategies**.
भारत भर में, पार्टियाँ डिजिटल रणनीतियों को क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करती हैं, लेकिन मूल रणनीति बनी रहती है।
- In **Telangana**, Congress used volunteers to raise **voter issues**, while BJP deployed **religious sentiment** through hidden community campaigns.
तेलंगाना में, कांग्रेस ने वोटर मुद्दों को उठाने के लिए स्वयंसेवकों का उपयोग किया, जबकि बीजेपी ने धार्मिक भावना के ज़रिए गुप्त समुदाय अभियानों को चलाया।
- In **Andhra Pradesh**, TDP focused on **caste and regional identities**, using misinformation on sensitive matters like **land rights**.
आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने जाति और क्षेत्रीय पहचान पर ध्यान केंद्रित किया, और भूमि अधिकारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गलत जानकारी फैलाई।
- YSRCP followed similar strategies, promoting **welfare schemes** and countering opposition narratives, though with less success.
वाईएसआरसीपी ने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई, कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया और विपक्षी विचारों का मुकाबला किया, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली।



- In **Maharashtra**, BJP led by **Devendra Fadnavis** projected **infrastructure success** through digital means, while the Opposition faltered by sharing **misleading visuals**.
महाराष्ट्र में, देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने डिजिटल माध्यमों से बुनियादी ढांचे की सफलता को प्रदर्शित किया, जबकि विपक्ष ने भ्रामक तस्वीरें साझा कर गलती की।
- In **Haryana**, BJP infiltrated community groups with **caste-focused leadership stories**, integrating propaganda into **folk narratives**.
हरियाणा में बीजेपी ने जाति आधारित नेतृत्व कहानियों के साथ सामुदायिक समूहों में घुसपैठ की, और लोककथाओं में प्रचार को जोड़ा।
- Congress lagged behind in digital grassroots presence in Haryana.
हरियाणा में कांग्रेस की डिजिटल स्तर पर पहुंच कमजोर रही।
- In **Delhi**, AAP and BJP competed using **AI-generated memes** and viral digital content targeting specific demographics.
दिल्ली में, आप और बीजेपी ने एआई जनित मीम्स और वायरल डिजिटल कंटेंट के माध्यम से विशिष्ट जनसमूहों को लक्ष्य कर मुकाबला किया।
- BJP's "**Sheesh Mahal**" campaign contrasted sharply with AAP's focus on **governance failures**.
बीजेपी का "शीश महल" अभियान, आप के शासन संबंधी विफलताओं पर केंद्रित अभियान से अलग नजर आया।

Incentivising digital volunteer armies

डिजिटल स्वयंसेवक सेनाओं को प्रोत्साहित करना

- Political parties have introduced **incentives** to strengthen their **digital volunteer base**.
राजनीतिक दलों ने अपने डिजिटल स्वयंसेवक आधार को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन प्रणाली लागू की है।
- BJP launched **Kamal Connect**, **Saral App**, and **Nation with Nammo**, assigning tasks, tracking performance, and using **leaderboards** to engage volunteers.
बीजेपी ने कमल कनेक्ट, सरल ऐप, और नेशन विथ नमो जैसे ऐप शुरू किए, जिनमें कार्य आवंटन, प्रदर्शन ट्रैकिंग और लीडरबोर्ड्स के ज़रिए स्वयंसेवकों को जोड़ने की प्रणाली है।
- Congress rewarded **Telangana volunteers** with **digital smart cards**, offering **insurance** and opportunities for **party roles**.
कांग्रेस ने तेलंगाना के स्वयंसेवकों को डिजिटल स्मार्ट कार्ड देकर बीमा और पार्टी पद प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।
- Regional parties like **TDP** and **YSRCP** also developed **advanced digital volunteer systems**, using **real-time feedback** for outreach improvements.
टीडीपी और वाईएसआरसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने भी विकसित डिजिटल स्वयंसेवक प्रणालियाँ बनाईं, जिसमें रीयल-टाइम फीडबैक के माध्यम से पहुंच को बेहतर बनाया गया।



Democratic Implications, Challenges

लोकतांत्रिक प्रभाव और चुनौतियाँ

- Digital platforms have now become **inseparably linked** with traditional electoral campaigning.
डिजिटल प्लेटफॉर्म अब पारंपरिक चुनाव प्रचार से **अलग नहीं किए जा सकते**।
- This merging blurs the line between **advertising** and **covert propaganda**, enabling **manipulative political messaging**.
यह मिलन **विज्ञापन** और **छुपे हुए प्रचार** की सीमाओं को धुंधला कर देता है, जिससे **प्रभावित करने वाले राजनीतिक संदेशों** का रास्ता खुलता है।
- Encrypted platforms like **WhatsApp** amplify **unchecked misinformation**, surpassing the capacity of fact-checkers due to **volume and speed**.
व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म **बिना जांची झूठी सूचनाओं** को **तेज़ी और बड़ी मात्रा में फैला देते हैं**, जिससे **फैक्ट-चेकर्स** पीछे छूट जाते हैं।
- This saturation of **misinformation** in private conversations **distorts voter perceptions** and can **undermine electoral integrity**.
निजी बातचीतों में **झूठी सूचनाओं की अधिकता** मतदाताओं की **धारणाओं** को **विकृत** कर सकती है और **चुनावी पारदर्शिता** को **कमजोर** कर सकती है।
- Addressing these challenges requires **civil society vigilance**, **independent journalism**, and **informed citizen activism**.
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए **नागरिक समाज की सतर्कता**, **स्वतंत्र पत्रकारिता**, और **जागरूक नागरिक भागीदारी** ज़रूरी है।

What Next?

अब आगे क्या?

- The battle for digital influence will become **more intense**, as parties keep refining strategies for **encrypted spaces**.
डिजिटल प्रभाव के लिए **लड़ाई और तेज़** होगी क्योंकि पार्टियाँ **एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्मों** पर रणनीतियाँ और परिष्कृत करेंगी।
- India's **infodemic** reflects a **global trend**, where **digital micro-targeting** increasingly **affects election outcomes**.
भारत की **सूचना महामारी (इंफोडेमिक)** एक **वैश्विक प्रवृत्ति** को दर्शाती है, जहाँ **डिजिटल माइक्रो-टारगेटिंग** चुनाव परिणामों को तेज़ी से प्रभावित कर रही है।
- Though **fact-checking organisations** exist, they struggle against the **pace and scale of viral misinformation**.
हालाँकि **फैक्ट-चेकिंग संगठन** मौजूद हैं, वे **तेज़ी और बड़े पैमाने पर फैलने वाली गलत सूचनाओं** का मुकाबला नहीं कर पाते।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- When **half-truths** dominate narratives, **fact-checking** has only a **limited effect**.
जब आधा-सच नैरेटिव पर हावी हो जाता है, तब फैक्ट-चेकिंग का प्रभाव सीमित रह जाता है।
- India must choose between **active vigilance** to protect **electoral integrity** or accept **digital manipulation** as normal.
भारत को चुनावी पारदर्शिता की रक्षा के लिए सक्रिय सतर्कता और डिजिटल हेरफेर को सामान्य रूप से स्वीकार करने के बीच चुनाव करना होगा।
- True democracy depends on the **collective responsibility** of **alert citizens**, **active media**, and **responsive civil society**.
सच्चे लोकतंत्र की नींव जागरूक नागरिकों, सक्रिय मीडिया, और उत्तरदायी नागरिक समाज की सांझा ज़िम्मेदारी पर टिकी होती है।
- Without mass awareness, the **infodemic** will continue to **subtly manipulate millions** of voters.
अगर जन-जागरूकता नहीं बढ़ी, तो सूचना महामारी (infodemic) लाखों नागरिकों को चुपचाप प्रभावित करती रहेगी।

Author Notes:

लेखक परिचय:

- Vignesh Karthik K.R. is a **postdoctoral research fellow** focused on **Indian and Indonesian politics** at the **Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Leiden**.
विगनेश कार्तिक के.आर. नीदरलैंड के लीडेन स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथईस्ट एशियन एंड कैरिबियन स्टडीज में भारत और इंडोनेशिया की राजनीति पर कार्यरत पोस्टडॉक्टरल रिसर्च फेलो हैं।
- Aakansha Tandon is a **political consultant** based in the **National Capital Region (NCR)**.
आकांक्षा टंडन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित एक राजनीतिक सलाहकार हैं।

TOPICS COVERED GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)

1. With Big Cat Count Rising, M.P. to Develop Buffer Zones Around Its 9 Tiger Reserves

बड़े बिल्लियों की संख्या बढ़ने के साथ, म.प्र. अपने 9 टाइगर रिज़र्व के चारों ओर बफर ज़ोन विकसित करेगा



2. Belgian Court Has Rejected Choksi's Bail Plea, Says His Lawyer

बेल्जियम की अदालत ने चौकसी की ज़मानत याचिका खारिज की, वकील ने कहा

3. NEERI Told to Study Impact of Industrial Units on Taj Mahal

ताजमहल पर औद्योगिक इकाइयों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए NEERI को निर्देश

4. Section 69 of the BNS is redundant

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 अनुपयोगी है

With big cat count rising, M.P. to develop buffer zones around its 9 tiger reserves

GS Paper III: Environment

The Hindu Bureau
BHOPAL

The Madhya Pradesh Cabinet on Tuesday approved a scheme for developing buffer zones in the State's nine tiger reserves, the government said.

The approval for the new scheme, 'Development of Buffer Zones in Tiger Reserves', with a total outlay of ₹145 crore for the financial years 2025-26 and 2027-28, was given at a Cabinet meeting chaired by Chief Minister Mohan Yadav.

As part of the scheme, chain-link fencing will be installed in the ecologically sensitive buffer areas, apart from developing grasslands and water resources.

"Key activities under the



Tracing the pug marks: A big cat spotted near the Bandhavgarh Tiger Reserve. The tiger population in Madhya Pradesh has increased from 526 to 785 over the past four years. FILE PHOTO

scheme will include the installation of chain-link fencing in ecologically sensitive buffer areas, implementation of wildlife pro-

tection and fire safety measures, development of grasslands and water sources, health monitoring and treatment of wild ani-

mals, and skill development training programmes for local communities," the State government said in a statement.

Conservation efforts

Inaugurated on March 10, Madhav National Park became the ninth tiger reserve in the State, the highest among all States. Three tigers, including two females, were introduced to the park in 2023 as part of the tiger reintroduction project in the State.

"Notably, the tiger population in buffer zones surrounding Madhya Pradesh's nine tiger reserves has increased from 526 to 785 over the past four years, underlining the importance of continued conservation efforts," the government said.

With Big Cat Count Rising, M.P. to Develop Buffer Zones Around Its 9 Tiger Reserves

बड़े बिल्लियों की संख्या बढ़ने के साथ, म.प्र. अपने 9 टाइगर रिज़र्व के चारों ओर बफर ज़ोन विकसित करेगा

The Madhya

Pradesh Cabinet on Tuesday approved a scheme to develop buffer zones in the State's nine tiger reserves.



मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के नौ टाइगर रिज़र्व में बफर ज़ोन विकसित करने की एक योजना को मंजूरी दी।

- The new scheme is titled '**Development of Buffer Zones in Tiger Reserves**', with a total outlay of **₹145 crore** for the financial years **2025–26 to 2027–28**.
इस नई योजना का नाम 'टाइगर रिज़र्व में बफर ज़ोन का विकास' रखा गया है, जिसमें ₹145 करोड़ का कुल बजट 2025-26 से 2027-28 तक के लिए निर्धारित है।
- The decision was taken during a Cabinet meeting chaired by **Chief Minister Mohan Yadav**.
यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

Key Features of the Scheme

योजना की मुख्य विशेषताएं

- The scheme will include **chain-link fencing** in **ecologically sensitive buffer areas**, along with **grassland development** and creation of **water resources**.
इस योजना में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील बफर क्षेत्रों में चेन-लिंक फेंसिंग, घास के मैदानों का विकास और जल संसाधनों का निर्माण शामिल होगा।
- Other activities will include **wildlife protection**, **fire safety measures**, **health monitoring and treatment of wild animals**, and **skill development training** for local communities.
अन्य गतिविधियों में वन्यजीव संरक्षण, आग से सुरक्षा उपाय, जंगली जानवरों की स्वास्थ्य निगरानी और उपचार, और स्थानीय समुदायों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल होंगे।

Conservation Efforts and New Reserve

संरक्षण प्रयास और नया रिज़र्व

- **Madhav National Park** was declared the **ninth tiger reserve** in Madhya Pradesh on **March 10**.
10 मार्च को माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का नौवां टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया।
- As part of the **tiger reintroduction project**, **three tigers**, including **two females**, were introduced to the park in **2023**.
2023 में टाइगर पुनःस्थापना परियोजना के तहत तीन बाघ, जिनमें दो मादा शामिल थीं, को इस पार्क में लाया गया।

Rise in Tiger Population in Buffer Zones

बफर ज़ोन में बाघों की बढ़ती संख्या



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The **tiger population** in buffer zones around Madhya Pradesh's nine reserves has increased from **526 to 785** over the past **four years**.
पिछले चार वर्षों में मध्य प्रदेश के नौ रिज़र्व के चारों ओर स्थित बफर ज़ोन में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है।
- This rise highlights the **importance of ongoing conservation efforts**, according to the State government.
राज्य सरकार के अनुसार, यह वृद्धि जारी संरक्षण प्रयासों की महत्ता को दर्शाती है।

PATRIOTIC IAS

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Belgian court has rejected Choksi's bail plea, says his lawyer

GS Paper II: Extradition
Press Trust of India

NEW DELHI

A Belgian court on Tuesday rejected the bail plea of Mehul Choksi, the diamond merchant who is a prime accused in the ₹13,000-crore Punjab National Bank (PNB) fraud case, his lawyer said.

The diamantaire was arrested in Antwerp by the Belgian police on April 12 based on an extradition request moved by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED).

His lawyer Vijay Aggarwal said the bail plea of his client has been rejected during a court hearing on Tuesday. Choksi will contest his extradition from jail custody now, a senior official said.

Choksi, 65, was located in Belgium last year after he reached there sometime in November 2023 on the grounds of getting medical treatment.

He had been staying in Antigua after leaving India in 2018 and had taken citizenship of the Caribbean country even though his



Mehul Choksi

Indian citizenship is stated to be valid.

At least two open-ended arrest warrants, issued by a special court in Mumbai in 2018 and 2021, have been shared by the Indian agencies with their Belgian counterparts as part of the extradition request, official sources had said earlier.

Aggarwal had earlier stated that Choksi was "extremely sick and undergoing treatment for cancer".

Choksi, Nirav Modi, their family members and employees, bank officials and others were booked by the CBI and the ED in 2018 for perpetrating the alleged loan fraud at the Brady House branch of the Punjab National Bank in Mumbai.

custody, said a senior official.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब चौकसी जेल में रहते हुए अपने प्रत्यर्पण का विरोध करेंगे।

Belgian Court Has Rejected Choksi's Bail Plea, Says His Lawyer

बेल्जियम की अदालत ने चौकसी की ज़मानत याचिका खारिज की, वकील ने कहा

A Belgian court on Tuesday rejected the bail plea of Mehul Choksi, who is a prime accused in the ₹13,000-crore Punjab National Bank (PNB) fraud case, according to his lawyer.

मंगलवार को एक बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चौकसी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी, जो कि ₹13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, उनके वकील के अनुसार।

• The diamond merchant was arrested in Antwerp by the Belgian police on April 12, based on an extradition request from the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED).

हीरा व्यापारी को 12 अप्रैल को एंटवर्प में बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो CBI और ED की प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई थी।

• His lawyer Vijay Aggarwal said that the bail plea was rejected during a court hearing held on Tuesday.

उनके वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को हुई अदालत की सुनवाई में ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई।

• Choksi will now contest his extradition from jail



- Choksi, aged 65, was located in **Belgium** last year, having arrived there in **November 2023** on the grounds of **medical treatment**.
65 वर्षीय चौकसी को पिछले वर्ष बेल्जियम में पाया गया था; वे नवंबर 2023 में चिकित्सकीय उपचार के आधार पर वहां पहुंचे थे।
- He had been residing in **Antigua** since **leaving India in 2018**, and had taken **citizenship of the Caribbean country**, though his **Indian citizenship** is officially still **valid**.
वे 2018 में भारत छोड़ने के बाद से एंटिगुआ में रह रहे थे और उन्होंने कैरेबियन देश की नागरिकता ले ली थी, हालांकि उनकी भारतीय नागरिकता अभी भी वैध मानी जा रही है।
- At least **two open-ended arrest warrants** were issued by a **special court in Mumbai** in **2018 and 2021**, and these have been shared by **Indian agencies** with their **Belgian counterparts**.
2018 और 2021 में मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा कम से कम दो ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, जिन्हें भारतीय एजेंसियों ने अपने बेल्जियम समकक्षों के साथ साझा किया है।
- Aggarwal earlier said that Choksi was **extremely sick** and undergoing **treatment for cancer**.
अग्रवाल ने पहले बताया था कि चौकसी बहुत बीमार हैं और कैंसर का इलाज करा रहे हैं।
- Choksi, **Nirav Modi**, their **family members**, **employees**, and **bank officials** were booked by the **CBI and ED in 2018** for allegedly perpetrating the **loan fraud** at the **Brady House branch of Punjab National Bank in Mumbai**.
चौकसी, नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्य, कर्मचारी और बैंक अधिकारी को **CBI और ED ने 2018 में मुंबई के पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में कर्ज धोखाधड़ी के आरोप में नामजद किया था।**



NEERI told to study impact of industrial units on Taj Mahal

GS Paper III: industrial Pollution

The Hindu Bureau

NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday tasked the National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) with studying the impact of glass industries on the Taj Mahal, a UNESCO World Heritage site.

A Bench of Justices A.S. Oka and Ujjal Bhuyan said in case of an adverse report from NEERI, then the court would not hesitate to pass a direction for the removal of the industrial units. The court asked NEERI to file an affidavit clarifying the time required to complete the assessment exercise. It ordered the government and its agencies to extend the expert body their cooperation and assistance.

“We want to know the extent of pollution caused by these industries. If we find that these industries are causing pollution, we won't hesitate to order



The court has asked Uttar Pradesh to form a team to visit industrial units near the Taj.

shifting them. Some examination has to be made about the extent of pollution,” the Bench said.

The court also directed the U.P. Pollution Control Board to constitute a team to visit industrial units highlighted in an affidavit filed recently by the State and submit an interim report on the aspect of pollutants produced by them.

The court had previously deplored the Taj Trapezium Zone authority on environment protection in and around the Taj Mahal asking it whether the preservation of the monument was a “*tamasha*”.

units.

न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और उज्जल भूयान की पीठ ने कहा कि अगर NEERI की रिपोर्ट नकारात्मक आई, तो अदालत औद्योगिक इकाइयों को हटाने का निर्देश देने में संकोच नहीं करेगी।

NEERI Told to Study Impact of Industrial Units on Taj Mahal

ताजमहल पर औद्योगिक इकाइयों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए NEERI को निर्देश

The Supreme Court on Tuesday assigned the **National Environmental Engineering Research Institute (NEERI)** the task of studying the impact of glass industries on the **Taj Mahal, a UNESCO World Heritage site.**

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) को ताजमहल पर कांच उद्योगों के प्रभाव का अध्ययन करने का कार्य सौंपा। ताजमहल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

• A Bench of Justices A.S. Oka and Ujjal Bhuyan stated that if NEERI gives an **adverse report**, the court would not hesitate to issue **orders for removal** of the industrial



- The court asked **NEERI** to file an **affidavit** stating the **time required** to complete the assessment.
अदालत ने **NEERI** से एक शपथपत्र दायर कर यह बताने को कहा कि इस अध्ययन को पूरा करने में कितना समय लगेगा।
- It directed the **government and its agencies** to extend **cooperation and assistance** to the expert body.
अदालत ने सरकार और उसकी एजेंसियों को विशेषज्ञ संस्था को सहयोग और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
- The **Bench** stated, "We want to know the **extent of pollution** caused by these industries. If found polluting, we won't hesitate to order **shifting** them."
पीठ ने कहा, "हम यह जानना चाहते हैं कि ये उद्योग कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। अगर यह साबित हुआ, तो हम इन्हें स्थानांतरित करने का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे।"
- The court also directed the **U.P. Pollution Control Board** to form a **team** to visit the **industrial units** mentioned in a recent affidavit by the State and to submit an **interim report** on the **pollutants produced**.
अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह एक टीम गठित कर राज्य द्वारा हाल में दायर शपथपत्र में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करे और उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों पर एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करे।
- The court had earlier criticized the **Taj Trapezium Zone authority** for its **lack of seriousness** in protecting the **environment** around the Taj Mahal and questioned if preservation had become a "**tamasha**."
अदालत ने पहले ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन प्राधिकरण को ताजमहल के आसपास के पर्यावरण संरक्षण में लापरवाही को लेकर फटकार लगाई थी और पूछा था कि क्या स्मारक का संरक्षण एक "तमाशा" बन गया है।



Section 69 of the BNS is redundant

GS Paper III: Cyber Security

Cases of rape registered on the premise of false promise of marriage have been in the eye of the storm for a long time. It is often alleged that despite the consent of some women to a physical relationship, the men in those relationships are accused of rape. It was expected that the Central government would do away with the provision of the law which undermines the agency of women in giving their free and informed consent before entering into a sexual relationship. Instead, it introduced a new provision in the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023. Section 69 (presumably) solely addresses cases involving sexual intercourse based on false promise of marriage. This stand-alone offence did not exist in the Indian Penal Code (IPC).

Limitations set by the Court

Section 69 has ostensibly reduced the gravity of cases of sexual intercourse registered on the false promise of marriage by reducing punishment, compared to the offence of rape defined under Section 63 BNS (or Section 375 of the IPC). Before discussing the redundancy of Section 69 BNS, it will be appropriate to see how the Supreme Court has narrowed the scope of such cases by imposing some restrictions.

First, differentiating between giving a false promise of marriage and committing breach of promise by the accused, the Court in a number of cases, including *Anurag Soni v. The State of Chhattisgarh* (2019), has held that unless the accused has no intention to fulfil the promise of marriage right from the beginning, it would not amount to rape. There could be cases when the accused might have made a promise with all seriousness to marry a woman, but subsequently encountered unforeseen circumstances.

In the second category of cases, when a woman knowingly maintains physical relations for a prolonged period, it cannot be said with certainty that this was



R.K. Vij

Former IPS officer

Without any change in the definition of rape and consent, the stand-alone Section 69 of the Bharatiya Nyaya Sanhita seems unsustainable

purely because of the alleged promise made by the accused to marry her. In other words, the physical relationship must be traceable directly to the false promise made, and it must not be qualified by other circumstances or considerations (such as love or passion for the accused). In *Rajnish Singh @ Soni v. State of U.P.* (2025), the Court quashed the FIR and all the proceedings against the accused. The complainant had maintained a sexual relationship for about 15 years with the accused and alleged sexual abuse only on learning that the appellant had married another woman. She had also on many occasions portrayed herself to be the wife of the appellant. The Court held that the relationship was consensual and with no element of deceit or misconception.

Third, if on the date of developing a physical relationship, the prosecutrix was already a married woman, surrendering before the man on a false promise of marriage will not fall within the definition of consent obtained on misconception of fact. After quoting many precedents set by the Supreme Court, the High Court of Madhya Pradesh in *Abhishek Arjariya v. The State of Madhya Pradesh* (2025) quashed the FIR and further proceedings based on similar facts.

Examining Section 69

Section 69 states that “whosoever, by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.” The explanation says “deceitful means” include “inducement for or false promise of employment or promotion or marrying by suppressing identity”.

Section 69 of the BNS was introduced as a separate offence; there were no changes to the

definition of rape and consent. A man is said to commit rape under Section 63 of the BNS under circumstances falling under seven descriptions, out of which six are concerned with consent. While under five descriptions, the consent is vitiated under given conditions, such as fear or death or intoxication, other cases of “without consent” fall under “misconception of fact” as provided in Section 28 of the BNS. Consent defined under Section 28 of the BNS is vitiated if given by a person under fear of injury, or under a misconception of fact, unsoundness of mind, or intoxication, or under 12 years of age. It therefore implies that false promise of marriage is covered under the generic term “misconception of fact” given in Section 28 of the BNS.

Since the definition of rape and consent given in the BNS are *pari materia* to their definitions given in the IPC, the offence of sexual intercourse committed consequent to the false promise of marriage, i.e., misconception of fact, will still fall under the scope of the offence of rape. Once an offence is justified to be covered under the scope of rape, it cannot hold ground as another offence of lesser gravity as defined under Section 69 of the BNS. Thus Section 69 appears to be redundant. Further, unless an “exception” is carved out in Section 63 to exclude cases falling under Section 69, Section 69 cannot be held constitutionality valid. Also, Section 69 does not have a non-obstante clause. It is therefore, likely to be hit by Article 14 of the Constitution.

When Courts are quashing FIRs based on the precedents described above, it would be better for the police not to charge-sheet such cases. A preliminary inquiry should be conducted to establish whether a cognisable offence was committed or not. Such action will prevent unnecessary hardship to the accused person and also save time for our constitutional courts.

Section 69 of the BNS is redundant

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 अनुपयोगी है

Without any change in the definition of rape and consent, the stand-alone **Section 69 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)** seems unsustainable.

बलात्कार और सहमति की परिभाषा में कोई बदलाव किए बिना, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की स्वतंत्र धारा 69 अस्थिर प्रतीत होती है।

- Cases of rape registered on the basis of **false promise of marriage** have long been controversial.
झूठे विवाह वादे के आधार पर दर्ज बलात्कार के मामलों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है।
- It is often alleged that **despite the woman's consent, men in such relationships are accused of rape.**
अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि महिला की सहमति होने के बावजूद, ऐसे संबंधों में पुरुषों पर बलात्कार का आरोप लगाया जाता है।
- It was expected that the Central government would remove such provisions which undermine **women's agency** in giving **free and informed consent.**
यह अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार ऐसे प्रावधानों को हटाएगी जो महिलाओं की स्वतंत्र और सूचित सहमति की क्षमता को कमजोर करते हैं।
- Instead, a new provision was introduced in **BNS, 2023** under **Section 69**, which apparently deals only with **sexual intercourse based on false promise of marriage.**
इसके बजाय, **BNS, 2023** में धारा 69 के तहत एक नया प्रावधान लाया गया, जो स्पष्ट रूप से केवल झूठे विवाह वादे के आधार पर यौन संबंध से संबंधित है।
- This offence was not a **stand-alone offence** in the **Indian Penal Code (IPC).**
यह अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) में एक स्वतंत्र अपराध के रूप में मौजूद नहीं था।

Limitations set by the Court

न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमाएं

- Section 69 reduces the **severity of punishment** compared to **Section 63 of BNS** (or Section 375 of IPC).
धारा 69, BNS की धारा 63 (या IPC की धारा 375) की तुलना में सजा की गंभीरता को कम करती है।
- Before evaluating the redundancy of Section 69, it is necessary to look at how the **Supreme Court** has already **limited the scope** of such cases.
धारा 69 की अनुपयोगिता पर विचार करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के दायरे को कैसे सीमित किया है।
- In multiple rulings, including **Anurag Soni v. State of Chhattisgarh (2019)**, the Court has clarified that **rape** is not established unless the **accused had no intention to marry**



from the beginning.

अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) सहित कई मामलों में, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी की शुरुआत से शादी की कोई मंशा नहीं थी, तभी बलात्कार माना जाएगा।

- If the man had made a sincere promise to marry but **unforeseen circumstances** occurred later, it would not constitute **rape**.
यदि पुरुष ने ईमानदारी से शादी का वादा किया हो और बाद में **अप्रत्याशित परिस्थितियाँ** उत्पन्न हुई हों, तो उसे **बलात्कार** नहीं माना जाएगा।
- In another category of cases, if a woman maintains **physical relations for a prolonged time**, it cannot be assumed that this was solely due to the **promise of marriage**.
दूसरे प्रकार के मामलों में, यदि कोई महिला **लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखती है**, तो यह मान लेना उचित नहीं कि यह केवल **विवाह वादे** के कारण था।
- In **Rajnish Singh @ Soni v. State of U.P. (2025)**, the woman had a **15-year-long relationship**, accused the man only after learning he married someone else.
रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) में, महिला ने **15 वर्षों तक संबंध बनाए रखे** और तब आरोप लगाया जब उसे पता चला कि पुरुष ने किसी और से शादी कर ली है।
- She had also portrayed herself as the **man's wife** on many occasions. The Court ruled the relationship was **consensual**, with no **deceit** involved.
महिला ने कई बार स्वयं को उस पुरुष की **पत्नी के रूप में प्रस्तुत** किया था। कोर्ट ने कहा कि संबंध **सहमति** से था और उसमें कोई **धोखा** नहीं था।
- In yet another category, if the woman was **already married** at the time of the physical relationship, it does not qualify as **consent obtained under misconception of fact**.
एक और श्रेणी में, यदि महिला **पहले से विवाहित** थी और फिर झूठे विवाह वादे पर शारीरिक संबंध बनाए, तो इसे **भ्रम के आधार पर प्राप्त सहमति** नहीं माना जाएगा।
- In **Abhishek Arjariya v. State of Madhya Pradesh (2025)**, the **High Court** quashed the FIR on such grounds.
अभिषेक अर्जरीया बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025) में, उच्च न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर एफआईआर को रद्द कर दिया।

Examining Section 69

धारा 69 की समीक्षा

- Section 69 of the BNS states that anyone who, by **deceitful means** or by making a **false promise of marriage** without intending to fulfill it, has **sexual intercourse** with a woman, shall be punished with **imprisonment up to 10 years** and shall also be **liable to fine**.
BNS की धारा 69 कहती है कि जो कोई **धोखे से** या **झूठे विवाह वादे** के माध्यम से, बिना उसे निभाने की मंशा के, किसी महिला से **यौन संबंध** बनाता है, उसे **10 वर्ष तक की सजा** और **जुर्माना** हो सकता है।
- The explanation adds that “**deceitful means**” includes **false promise of employment, promotion, or marriage by suppressing identity**.



व्याख्या में जोड़ा गया है कि "धोखे से साधन" में झूठे रोजगार वादे, प्रमोशन या पहचान छुपाकर शादी करने जैसे कार्य शामिल हैं।

- Section 69 is introduced as a **separate offence** under the BNS, without altering the definitions of **rape** or **consent**.

धारा 69 को **BNS में एक अलग अपराध** के रूप में पेश किया गया है, जबकि **बलात्कार** या **सहमति** की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

- Under **Section 63 of BNS**, a man is said to commit **rape** under **seven categories**, six of which relate to **consent**.

BNS की धारा 63 के तहत किसी पुरुष द्वारा **बलात्कार** के सात प्रकार माने गए हैं, जिनमें से छह **सहमति** से जुड़े हैं।

- In **five categories**, consent is **vitiated** under specific conditions such as **fear, death threat, or intoxication**.

इनमें से **पाँच श्रेणियों** में, **डर, मृत्यु की धमकी या नशा** जैसी स्थितियों में **सहमति अमान्य** मानी जाती है।

- Other cases of **lack of consent** are considered under "**misconception of fact**", as defined in **Section 28 of BNS**.

अन्य मामलों में **सहमति की कमी** को **BNS की धारा 28** में परिभाषित "**तथ्य का भ्रम**" के तहत माना जाता है।

- According to **Section 28**, consent is vitiated if it is obtained through **fear of injury, misconception of fact, unsoundness of mind, intoxication**, or if the person is **under 12 years of age**.

धारा 28 के अनुसार, यदि सहमति **चोट के डर, तथ्य के भ्रम, मानसिक विकार, नशा** या **12 वर्ष से कम आयु** में दी गई हो, तो वह अमान्य मानी जाएगी।

- Thus, **false promise of marriage** already falls under the broad term "**misconception of fact**", as defined under Section 28.

इस प्रकार, **झूठा विवाह वादा** पहले से ही **धारा 28** में परिभाषित "**तथ्य के भ्रम**" की श्रेणी में आता है।

- Since the definitions of **rape and consent** in BNS are **pari materia** (i.e., same) with those in **IPC**, false promise of marriage is already included in the definition of **rape**.

चूँकि **BNS में बलात्कार और सहमति की परिभाषाएं, IPC की परिभाषाओं के समान ही हैं (pari materia)**, इसलिए **झूठे विवाह वादे** को पहले से ही **बलात्कार की परिभाषा** में शामिल किया गया है।

- Once an act qualifies as **rape**, it cannot simultaneously be treated as a **lesser offence** under **Section 69**.

एक बार कोई कृत्य **बलात्कार** की श्रेणी में आ गया, तो उसे **धारा 69** के तहत **कम गंभीर अपराध** नहीं माना जा सकता।

- Therefore, **Section 69** appears to be **redundant**.

इसलिए, **धारा 69** को **अनुपयोगी** माना जा सकता है।

- Unless an **exception** is inserted in **Section 63** to exclude cases under Section 69, Section 69 cannot be **constitutionally valid**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



PCS

Questions and Answers to the previous day's daily quiz.

1. Pope's birthname. Ans: **Jorge**

Bergoglio

2. Argentinian football club the Pope was a fan of. Ans: **San Lorenzo**

3. The topic to which the Pope said, "Who am I to judge?" Ans: **Question on a gay priest**

4. South American country where the Pope apologised in 2015. Ans: **Bolivia**

5. Artefact presented by its President. Ans: **A 'Communist crucifix'**

Visual: Movie and Sir Anthony Hopkins' role. Ans: **The Two Popes Pope Benedict XVI**

जब तक धारा 63 में अपवाद जोड़कर धारा 69 को अलग नहीं किया जाता, तब तक धारा 69 को संवैधानिक रूप से वैध नहीं माना जा सकता।

• Section 69 also lacks a **non-obstante clause**, making it vulnerable to being struck down under **Article 14 of the Constitution**.

धारा 69 में "नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज" नहीं है, जिससे यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अमान्य करार दी जा सकती है।

• When **Courts** are already **quashing FIRs** in such cases based on legal precedents, it is advisable that **police** avoid filing **charge-sheets** hastily.

जब न्यायालय ऐसे मामलों में पूर्ववर्ती निर्णयों के आधार पर FIR रद्द कर रहे हैं, तब पुलिस को जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल करने से बचना चाहिए।

• A **preliminary inquiry** should be conducted to determine whether a **cognisable offence** has been committed.

यह तय करने के लिए एक प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए कि क्या

कोई गंभीर अपराध हुआ है या नहीं।

• Such action will avoid **hardship to the accused** and reduce **burden on constitutional courts**.

इससे आरोपी को अनावश्यक कष्ट से बचाया जा सकेगा और संवैधानिक न्यायालयों का बोझ भी कम होगा।

TOPICS COVERED (PCS Special)

1. **Questions and Answers to the Previous Day's Daily Quiz**

पिछले दिन की डेली क्विज़ के प्रश्न और उत्तर

2. **Simranpreet Misses Sports Pistol Gold by One Point**

सिमरनप्रीत एक अंक से स्पोर्ट्स पिस्टल में गोल्ड से चूकीं

Questions and Answers to the Previous Day's Daily Quiz

पिछले दिन की डेली क्विज़ के प्रश्न और उत्तर

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



Pope's birthname

पोप का जन्म नाम

The birth name of the Pope is **Jorge Bergoglio**.

पोप का जन्म नाम जॉर्ज बर्गोलियो है।

- **Argentinian football club the Pope was a fan of**
अर्जेंटीना का वह फुटबॉल क्लब जिसके पोप प्रशंसक थे
The Pope was a fan of the **Argentinian football club San Lorenzo**.
पोप अर्जेंटीना के फुटबॉल क्लब सैन लोरेन्ज़ो के प्रशंसक थे।
- **The topic on which the Pope said, "Who am I to judge?"**
वह विषय जिस पर पोप ने कहा, "मैं कौन होता हूँ निर्णय देने वाला?"
The Pope said this in response to a **question on a gay priest**.
पोप ने यह कथन एक **समलैंगिक पादरी** के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर दिया था।
- **South American country where the Pope apologised in 2015**
दक्षिण अमेरिकी देश जहाँ पोप ने 2015 में माफ़ी माँगी थी
In **2015**, the Pope apologised in **Bolivia**.
2015 में पोप ने **बोलीविया** में माफ़ी माँगी थी।

Artefact presented by its President

उस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत वस्तु

The President presented a '**Communist crucifix**' to the Pope.

राष्ट्रपति ने पोप को एक '**कम्युनिस्ट क्रूसिफिक्स**' भेंट किया था।



Simranpreet misses sports pistol gold by one point

SHOOTING WC

PCS

Sports Bureau

The 25m sports pistol gold eluded the grasp of Simranpreet Kaur Brar by one point as she fought hard against qualification top-per Sun Jujie (585) of China in the Shooting World Cup that concluded in Lima, Peru, on Monday.

The 20-year-old lost the gold 33-34 to the Chinese, even as she matched her in the last two series. The Chinese had a one-point lead after eight series of five shots, and held on to the lead over the next two series to prevail for the gold.

Manu Bhaker made the final in style, shooting the top score of 585 like the Chinese, but was pushed to fourth by Yao Qianxun.



Top show: Simranpreet, champion Sun, and Yao. ISSF

China tops the table with four gold, three silver and six bronze. USA was second with four gold, two silver and a bronze, while India followed third with two gold, four silver and a bronze. Czech Republic, Norway, Italy and Australia were the other teams to win at least one gold.

The results:

25m sports pistol: 1. Sun Yujie

(Chn) 34 (585); 2. Simranpreet Kaur Brar 33 (580); 3. Yao Qianxun (Chn) 29 (582); 4. Manu Bhaker 22 (585); 6. Esha Singh 17 (575).

Trap: Mixed team: 1. Australia (Penny Smith, Mitchell Iles) 42 (144); 2. Guatemala (Adriana Olivia, Jean Pierre Cardenas) 39 (144); 3. Italy (Silvana Stanco, Mauro De Filippis) 41 (141); 4. USA (Rachel Tozier, Walton Eller) 40 (142); 8. India-2 (Pragati Dubey, Prithviraj Tondaiman) 134; 12. India (Neeru, Lakshay Sheoran) 128.

Simranpreet Misses Sports Pistol Gold by One Point

सिमरनप्रीत एक

अंक से स्पोर्ट्स

पिस्टल में गोल्ड से

चूकीं

The 25m sports pistol gold medal slipped from the grasp of Simranpreet Kaur Brar by just one point in the Shooting World Cup held in Lima, Peru, on Monday.

सोमवार को लीमा,

पेरू में आयोजित

शूटिंग वर्ल्ड कप में

सिमरनप्रीत कौर बराड़ सिर्फ एक अंक से 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल का गोल्ड मेडल जीतने से चूक गईं।

- She lost 33-34 to China's **Sun Jujie**, who had topped the **qualification** round with a score of **585**.

उन्होंने चीन की सन जुजी से 33-34 से हार झेली, जिन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 585 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया था।

- Despite matching the Chinese shooter in the **last two series**, Simranpreet couldn't overcome the **one-point lead** Sun held after the **first eight series**.

हालांकि सिमरनप्रीत ने आखिरी दो सीरीज़ में चीनी शूटर की बराबरी की, लेकिन वह पहली आठ सीरीज़ के बाद सन की एक अंक की बढ़त को पार नहीं कर सकीं।



- **Manu Bhaker** also reached the final impressively with a **top score of 585**, but she was pushed to **fourth place** by Yao Qianxun.
मनु भाकर ने भी 585 के सर्वोच्च स्कोर के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई, लेकिन उन्हें याओ कियानशुन ने चौथे स्थान पर धकेल दिया।
- **China topped** the medals table with **4 gold, 3 silver, and 6 bronze** medals.
चीन ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ मेडल तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- **USA came second** with **4 gold, 2 silver, and 1 bronze**, while **India finished third** with **2 gold, 4 silver, and 1 bronze**.
अमेरिका ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत ने 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- Other countries like the **Czech Republic, Norway, Italy, and Australia** also secured at least **one gold** medal.
चेक गणराज्य, नॉर्वे, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों ने भी कम से कम एक गोल्ड मेडल जीता।

Final Results – 25m Sports Pistol (Women)

अंतिम परिणाम – 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल (महिला)

- **1st: Sun Yujie (China) – 34 points, Qualification: 585**
 - 1वां स्थान: सन यूजी (चीन) – 34 अंक, क्वालिफिकेशन: 585
- **2nd: Simranpreet Kaur Brar (India) – 33 points, Qualification: 580**
 - 2रा स्थान: सिमरनप्रीत कौर बराड़ (भारत) – 33 अंक, क्वालिफिकेशन: 580
- **3rd: Yao Qianxun (China) – 29 points, Qualification: 582**
 - 3रा स्थान: याओ कियानशुन (चीन) – 29 अंक, क्वालिफिकेशन: 582
- **4th: Manu Bhaker (India) – 22 points, Qualification: 585**
 - 4था स्थान: मनु भाकर (भारत) – 22 अंक, क्वालिफिकेशन: 585
- **6th: Esha Singh (India) – 17 points, Qualification: 575**
 - 6ठा स्थान: ईशा सिंह (भारत) – 17 अंक, क्वालिफिकेशन: 575

Trap – Mixed Team Final Results

ट्रैप – मिक्स्ट टीम के अंतिम परिणाम

- **1st: Australia (Penny Smith, Mitchell Iles) – 42 points, Qualification: 144**
 - 1वां स्थान: ऑस्ट्रेलिया (पेनी स्मिथ, मिशेल इल्स) – 42 अंक, क्वालिफिकेशन: 144
- **2nd: Guatemala (Adriana Olivia, Jean Pierre Cardenas) – 39 points, Qualification: 144**
 - 2रा स्थान: ग्वाटेमाला (एड्रियाना ओलिविया, जीन पियरे कार्डेनास) – 39 अंक, क्वालिफिकेशन: 144
- **3rd: Italy (Silvana Stanco, Mauro De Filippis) – 41 points, Qualification: 141**
 - 3रा स्थान: इटली (सिलवाना स्टैंको, माउरो डी फिलिपिस) – 41 अंक, क्वालिफिकेशन: 141



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- 4th: USA (Rachel Tozier, Walton Eller) – 40 points, Qualification: 142
 - 4था स्थान: अमेरिका (रेचेल टोज़ियर, वॉल्टन एलर) – 40 अंक, क्वालिफिकेशन: 142
- 8th: India-2 (Pragati Dubey, Prithviraj Tondaiman) – 134 points
 - 8वां स्थान: भारत-2 (प्रगति दुबे, पृथ्वीराज टोंडाइमन) – 134 अंक
- 12th: India (Neeru, Lakshay Sheoran) – 128 points
 - 12वां स्थान: भारत (नीरू, लक्षय श्योराण) – 128 अंक

PATRIOTIC IAS

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in